



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2434]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 2010/अग्रहायण 9, 1932

No. 2434]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 2010/AGRAHAYANA 9, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2010

का.आ. 2872(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1602(अ), तारीख 2 जुलाई, 2010, का.आ. 1711(अ), तारीख 19 जुलाई, 2010, और का.आ. 1936(अ), तारीख 9 अगस्त, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थीं, द्वारा झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के 00.000 कि.मी. से 40.500 कि.मी. (बरही-हजारीबाग सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचनाओं से उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचनाओं का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 31 जुलाई, 2010, 24 अगस्त, 2010 और 4 सितम्बर, 2010 को "हिन्दुस्तान" में तथा तारीख 25 अगस्त, 2010 को "दि टेलीग्राफ" में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य के हजारीबाग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग - 33 के 00.00 कि.मी. से 40.500 कि.मी. तक (बरही - हजारीबाग सेक्शन) के लिए भूमि की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकृति	क्षेत्रफल		हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
							(एकड़ में)	(वर्ग मीटर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	हजारीबाग	बरही	(1) खोनराहार	730	निजी	टॉड	0.030	121.408	श्रीमति गांगो देवी पति निर्मल महतो
				731	निजी	टॉड	0.010	40.469	श्रीमति गांगो देवी पति निर्मल महतो
				733	निजी	टॉड	0.040	161.878	श्रीमति गांगो देवी पति निर्मल महतो
				734/1	निजी	टॉड	0.020	80.939	किसुन यादव वो जानकी यादव वो चौली यादव वो बोधी यादव पिता स्व० नूनू महतो
				734/2	निजी	टॉड	0.030	121.408	इसो सिंह वो नागेश्वर सिंह पिता स्व० जोबा सिंह
				735	निजी	टॉड	0.020	80.939	कैला यादव वो शम्भु यादव पिता स्व० मंगर यादव
				736/1	निजी	टॉड	0.010	40.469	मा० माखना पिता स्व० माखरा यादव
				736/2	निजी	टॉड	0.010	40.469	मो० भगीया पति टिको यादव
				737	निजी	टॉड	0.010	40.469	शंभु भुइया पिता स्व० मानकी भुइया एक अंश वो खिरन भुइया पिता स्व० विशुन भुइया
				738	निजी	टॉड	0.030	121.408	अज्ञात
				739/1	निजी	टॉड	0.010	40.469	किसुन यादव वो बोधी यादव वो जानकी यादव वो चौली यादव पिता स्व० नूनू महतो
				739/2	निजी	टॉड	0.010	40.469	कमल यादव पिता स्व० जीतन यादव।
				741/1	निजी	टॉड	0.010	40.469	नन्दु यादव पिता स्व० किसुन यादव
				741/2	निजी	टॉड	0.010	40.469	शंकर यादव पिता स्व० टेको यादव
				742	निजी	टॉड	0.010	40.469	प्रसादी यादव पिता स्व० भोला यादव
				743	निजी	टॉड	0.010	40.469	कैलाश गोप पिता स्व० पुनीत गोप
				744	निजी	टॉड	0.010	40.469	विजय यादव वो राजदेव यादव पिता स्व० सुगन यादव
				745	निजी	टॉड	0.010	40.469	मो० दुलारी पति स्व० गन्दोरी राम
				746	निजी	टॉड	0.010	40.469	डेगन यादव वो फुलाकी यादव वो दुलार यादव वो राजदेव यादव पिता स्व० जमन यादव
				747/1	निजी	टॉड	0.005	20.235	गोपाल यादव पिता स्व० तिलक महतो वो मो० कौशल्या पति स्व० मित्रा प्रसाद यादव
				747/2	निजी	टॉड	0.005	20.235	मो० मैनवा पति स्व० जुगल यादव एक अंश वो तुलसी यादव वो प्रभु यादव पिता स्व० धरम महतो
				748/1	निजी	टॉड	0.008	30.352	बासदेव राम पिता स्व० चतुरीराम वो सुखदेव राम वो सुरेश राम वो राजकिशोर राम वो महेन्द्र कुमार पिता स्व० उमर राम
				748/2	निजी	टॉड	0.003	10.117	जमुना यादव पिता स्व० लुकन यादव
				749	निजी	टॉड	0.010	40.469	किरंगी राम पिता स्व० मंगर राम
				750	निजी	टॉड	0.010	40.469	शम्भु भुइया पिता स्व० मानकी भुइया वो खिरन भुइया पिता स्व० विशुन भुइया
				751	निजी	टॉड	0.010	40.469	जगदीश प्रसाद पिता स्व० पुनीत प्रसाद
				752	निजी	टॉड	0.010	40.469	महेन्द्र यादव पिता स्व० बोधी महतो
				774	निजी	टॉड	0.010	40.469	ईसो सिंह वो नागो सिंह पिता स्व० जोबा सिंह
				775	निजी	टॉड	0.010	40.469	ईसो सिंह वो नागो सिंह पिता स्व० जोबा सिंह
				780	निजी	टॉड	0.010	40.469	श्री मति जगनी देवी पति श्री कमल महतो। देवलाल यादव पिता स्व० रघु यादव 2. श्री महेन्द्र प्रसाद यादव पिता स्व० केशो गोप 3. श्री दीनानाथ यादव पिता स्व० अमृत प्रसाद यादव 4. रोहित यादव पिता श्री छोटेलाल यादव

1	2	3	4	5	6	7	8		9
				792	निजी	टॉड	0.010	40.469	फिरंगीराम पिता स्व० मंगर राम वो शशि राम पिता स्व० राजेन्द्र राम वो विजेन्द्र राम वो बंगाली राम वो श्याम राम पिता स्व० गन्दीरी राम समान वो आशिष राम वो विकास राम पिता स्व० सिकन्दर राम । 1. श्री देवलाल यादव पिता स्व रघु यादव 2. श्री महेन्द्र प्रसाद यादव पिता स्व० केशो गोप 3. श्री दीनानाथ यादव पिता स्व० अमृत प्रसाद यादव 4. श्री राहित यादव पिता श्री छोटेलाल प्रसाद ।
				793	निजी	टॉड	0.010	40.469	छत्रधारी महतो उर्फ कारु महतो पिता श्री कमल महतो । 1. श्री देवलाल यादव पिता स्व रघु यादव 2. श्री महेन्द्र प्रसाद यादव पिता स्व० केशो गोप 3. श्री दीनानाथ यादव पिता स्व० अमृत प्रसाद यादव 4. श्री रोहित यादव पिता श्री छोटेलाल प्रसाद ।
				794	निजी	टॉड	0.020	80.939	बुधन महतो वो कैलश गोप वो जगदीश प्रसाद पिता स्व० पुनीत महतो । 1. श्री देवलाल यादव पिता स्व रघु यादव 2. श्री महेन्द्र प्रसाद यादव पिता स्व० केशो गोप 3. श्री दीनानाथ यादव पिता स्व० अमृत प्रसाद यादव 4. श्री राहित यादव पिता श्री छोटेलाल प्रसाद ।
				795	निजी	टॉड	0.020	80.939	कमल महतो पिता स्व० जीतन महतो एक अंश वो रूपन महतो वो कल्पू महतो पिता स्व० ललीत महतो वो किसुन महतो वो जानकी महतो वो चोली महतो वो बोधी महतो पिता स्व० नूनू महतो । 1. श्री देवलाल यादव पिता स्व रघु यादव 2. श्री महेन्द्र प्रसाद यादव पिता स्व० केशो गोप 3. श्री दीनानाथ यादव पिता स्व० अमृत प्रसाद यादव 4. श्री रोहित यादव पिता श्री छोटेलाल यादव
				796	निजी	टॉड	0.020	80.939	1. श्री देवलाल यादव पिता स्व रघु यादव 2. श्री महेन्द्र प्रसाद यादव पिता स्व० केशो गोप 3. श्री दीनानाथ यादव पिता स्व० अमृत प्रसाद यादव 4. श्री रोहित यादव पिता श्री छोटेलाल यादव
				800	निजी	टॉड	0.020	80.939	बद्री महतो पिता स्व० चमर महतो
				801	निजी	टॉड	0.100	404.694	शिव कुमार राम वो सुरेन्द्र कुमार वर्मा पिता स्व० सरयु राम वो मो० कपुरवा पति स्व० बलदेव राम
				802	निजी	टॉड	0.010	40.469	किसुन महतो वा बोधी महतो वो जानकी महतो वो चोली महतो पिता स्व० नूनू महतो
				803	निजी	टॉड	0.010	40.469	गोपाल यादव वो महेश यादव पिता स्व० तिलक महतो वो मा० कौशल्या पति स्व० मित्रा प्रसाद यादव
				804	निजी	टॉड	0.010	40.469	गोपाल यादव वो महेश यादव पिता स्व० तिलक महतो वो मा० कौशल्या पति स्व० मित्रा प्रसाद यादव
				805/1	निजी	टॉड	0.010	40.469	मो० कौशल्या पति स्व० मित्रा प्रसाद यादव
				805/2	निजी	टॉड	0.010	40.469	गोपाल यादव वो महेश यादव पिता स्व० तिलक महतो
				806/1	निजी	टॉड	0.030	121.408	मो० कौशल्या पति स्व० मित्रा प्रसाद यादव
				806/2	निजी	टॉड	0.030	121.408	गोपाल यादव वो महेश यादव पिता स्व० तिलक यादव
				807/1	निजी	टॉड	0.020	80.939	मो० कौशल्या पति स्व० मित्रा प्रसाद यादव ।
				807/2	निजी	टॉड	0.020	80.939	गोपाल यादव वो महेश यादव पिता स्व० तिलक यादव
				808	निजी	टॉड	0.020	80.939	जगदीश यादव पिता स्व० जगदीश यादव

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				809	निजी	टॉड	0.010	40.469	विजय यादव वो राजदेव यादव पिता स्व० सुगन यादव अंश समान
				811	निजी	टॉड	0.010	40.469	अज्ञात
				812	निजी	टॉड	0.010	40.469	पार्वती देवी पति जगरनाथ राम
				813	निजी	टॉड	0.010	40.469	अज्ञात
				814	निजी	टॉड	0.020	80.939	पार्वती देवी पति स्व० जगरनाथ राम
				818	निजी	टॉड	0.030	121.408	श्री मति साखों देवी पति गयाजीत सिंह।
				819	निजी	टॉड	0.030	121.408	नारायण सिंह पिता स्व० मकरध्वज सिंह
				821	निजी	टॉड	0.030	121.408	मो० सीता देवी पति स्व० जगदीश सिंह
				822	निजी	टॉड	0.030	121.408	मो० सीता देवी पति स्व० जगदीश सिंह
				824	निजी	टॉड	0.060	242.817	राजेश्वर सिंह पिता गयाजीत सिंह वो दशरथ सिंह वो महेन्द्र सिंह पिता स्व० गोवर्धन सिंह।
				825	निजी	टॉड	0.010	40.469	नारायण सिंह पिता स्व० मकरध्वज सिंह
				839	निजी	टॉड	0.020	80.939	विनय कुमार सिंह पिता स्व० जगदीश सिंह
				841	निजी	टॉड	0.010	40.469	मो० रानी पति स्व० दशरथ सिंह
				843	निजी	धान	0.030	121.408	मो० रानी पति स्व० दशरथ सिंह
				869	निजी	धान	0.020	80.939	मो० रानी पति स्व० दशरथ सिंह
				870	निजी	धान	0.090	364.225	तुलसी सिंह वो राजेश्वर सिंह वो प्रदीप सिंह वो सुनील सिंह वो त्रिवेणी सिंह पिता स्व० रघुनन्दन सिंह
				871	निजी	धान	0.010	40.469	कुन्ती देवी पति किसुन यादव
				872	निजी	धान	0.040	161.878	कमल यादव पिता स्व० जीतन यादव वो तुलसी यादव वो प्रभू यादव वो स्व० धरम महतो वो मो० मैनवा पति स्व० जुगल यादव।
				873	निजी	धान	0.010	40.469	रामु यादव पिता स्व० खेमन महतो
				875	निजी	धान	0.130	526.103	शंकर यादव पिता स्व० टेको महतो वो नन्दु महतो पिता स्व० किसुन महतो
				876	निजी	धान	0.020	80.939	उत्तीम महतो पिता स्व० नन्हकु महतो
				877	निजी	धान	0.030	121.408	कमल महतो पिता स्व० जीतन महतो वो गोपाल यादव वो महेश यादव पिता स्व० तिलक महतो वो मो० कौशल्या पति स्व० मित्रा प्रसाद यादव।
				1467	निजी	धान	0.150	607.042	कमल यादव पिता स्व० जीतन यादव वो रूपन यादव वो कल्पु यादव पिता स्व० ललीत यादव समान वो मो० मैनवा वो तुलसी यादव वो प्रभु यादव पिता स्व० धरम महतो।
				884	निजी	धान	0.020	80.939	शिव कुमार राम वो सुरेन्द्र कुमार वर्मा पिता स्व० सरयु राम।
				885/1	निजी	धान	0.080	323.756	गोपाल यादव वो महेश यादव पिता स्व० तिलक महतो वो मो० कौशल्या पति स्व० मित्रा प्रसाद यादव।
				885/2	निजी	धान	0.080	323.756	रूपन यादव वो कल्पु यादव पिता स्व० ललीत महतो
				952	निजी	धान	0.110	445.164	धनु यादव पिता स्व० रघु महतो
				956	निजी	धान	0.010	40.469	चौली यादव वो बोधी यादव पिता स्व० नूनू महतो
				953	निजी	धान	0.010	40.469	धनु यादव पिता स्व० रघु महतो
				1007/1	निजी	धान	0.045	182.113	किसुन यादव वो बाघा या चाला यादव या जानका यादव पिता स्व० नूनू महतो
				1007/2	निजी	धान	0.045	182.113	मो० कौशल्या पति स्व० मित्रा प्रसाद यादव
				1006/1	निजी	धान	0.025	101.174	किसुन यादव वो बोधी वो चौली यादव वो जानकी यादव पिता स्व० नूनू महतो
				1006/2	निजी	धान	0.025	101.174	मो० कौशल्या पति स्व० मित्रा प्रसाद यादव
				1006/3	निजी	धान	0.080	364.225	सुन्दरी देवी पति सुखदेव प्रसाद यादव
				1006/4	निजी	धान	0.010	40.469	श्रीमति मीना देवी पति मनोहर सिंह
				1006/5	निजी	धान	0.010	40.469	अशोक राम पति बासदेव राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				1000/4	निजी	धान	0.010	40.469	मो० सीता देवी पति स्व० जगदीश सिंह
				999	निजी	धान	0.030	121.408	सुन्दरी देवी पति सुखदेव प्रसाद
				1001	निजी	धान	0.020	80.939	सुन्दरी देवी पति सुखदेव प्रसाद
				983	निजी	धान	0.020	80.939	सुन्दरी देवी पति सुखदेव प्रसाद
				998	निजी	धान	0.010	40.469	सुन्दरी देवी पति सुखदेव प्रसाद
				997	निजी	धान	0.010	40.469	अज्ञात
				995	निजी	धान	0.010	40.469	राजेश्वर सिंह पिता श्री गयाजीत सिंह
				994	निजी	धान	0.010	40.469	राजेश्वर सिंह पिता श्री गयाजीत सिंह
				992	निजी	धान	0.020	80.939	मो० रानी पति स्व० दशरथ सिंह
				991	निजी	धान	0.010	40.469	मो० रानी पति स्व० दशरथ सिंह
				981	निजी	टॉड	0.060	242.817	महेन्द्र सिंह पिता श्री गोवर्धन सिंह
				557	निजी	टॉड	0.020	80.939	श्रीमति रूकनी देवी पति जगदीश यादव
				555	निजी	टॉड	0.010	40.469	राजेन्द्र यादव वो मोहन यादव वो दशरथ यादव पिता स्व० बन्धन यादव वो मो० सरस्वती पति स्व० सरयु यादव ।
				554	निजी	टॉड	0.010	40.469	महेन्द्र प्रसाद यादव पिता स्व० केशो गोप
				553	निजी	टॉड	0.020	80.939	मो० सीता पति स्व० जगदीश सिंह गोपाल यादव वो महेश यादव पिता स्व० तिलक महतो वो मो० कौशल्या पति स्व० मित्रा प्रसाद यादव वो धरम महतो पिता स्व० खोसो महतो ।
				552/1	निजी	टॉड	0.005	20.235	सुखदेव राम वो सुरेश राम वो राज किशोर सिंह वो महेश कुमार सिंह पिता स्व० उमर राम ।
				552/2	निजी	टॉड	0.005	20.235	जगदीश प्रसाद पिता स्व० पुनीत प्रसाद
				551	निजी	टॉड	0.020	80.939	चन्द्रीकाराम पिता स्व० बैजुराम वो सरयु राम वो जोधीराम पिता स्व० मिदुराम वो सुरेन्द्र राम वो अनील राम वो उदय राम पिता स्व० सनु राम वो देवधारी राम वो धनिश्वर राम वो प्रमेश्वर राम वो कामेश्वर राम पति स्व० हरिलाल राम बारह
				550	निजी	टॉड	0.020	80.939	बुधन महतो वो कैलश गोप वो जगदीश प्रसाद पति स्व० पुनीत महतो
				549	निजी	टॉड	0.020	80.939	मो चंचला पति स्व० प्रेम राम एक अंश वो निरजन राम पति स्व० दहन राम
				548	निजी	टॉड	0.010	40.469	मो० बुटनी पति स्व० मंगर महतो
				547	निजी	टॉड	0.010	40.469	श्रीमति रामदुलारी देवी पति गन्दौरी राम
				546	निजी	टॉड	0.010	40.469	रामदुलारी देवी पति गनौरी राम महेन्द्र यादव पति स्व० बोधी यादव वो मो० द्रापति पति चोलो यादव वो राजु यादव पति स्व० शनु यादव ।
				545	निजी	टॉड	0.010	40.469	बिजेन्द्र राम वो बंगाली राम वो श्याम राम पति स्व० गन्दौरी राम वो आशिष राम वो विकास राम पति स्व० सिकन्दर राम वो शशी राम पिता स्व० राजेन्द्र राम ।
				540	निजी	टॉड	0.010	40.469	श्री मति रूकनी देवी पति जगदीश यादव
				537/1	निजी	टॉड	0.005	20.235	गुलसा यादव पिता स्व० धरम महतो
				537/2	निजी	टॉड	0.025	101.174	गोपाल यादव वो महेश यादव पिता स्व० तिलक महतो वो मो० कौशल्या पति स्व० मित्रा प्रसाद यादव वो मो० मैनवा पति स्व० जुगल यादव वो प्रभु यादव पति स्व० धरम महतो
				537/3	निजी	टॉड	0.030	121.408	कमल महतो पिता स्व० जितन यादव वो रूपन यादव वो कल्पु यादव पिता स्व० ललीत महतो वो तिलक यादव वो लालधारी यादव वो रामेश्वर यादव वो बुधन यादव पिता स्व० नान्दो महतो वो किशुन यादव वो जानकी यादव वो चाली यादव वो बोधी महतो ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				538	निजी	टॉड	0.360	1456.900	रामसहाय सिंह
				539	निजी	टॉड	0.420	1699.717	मो० पार्वती पति भरत राम वो चेतलाल सिंह वो तपेश्वर सिंह वो गजाधर राम पिता स्व० शिवचरण राम
				1062/1	निजी	टॉड	0.040	161.878	रामचन्द्र महतो पिता स्व० चमन महतो
				1062/2	निजी	टॉड	0.035	141.643	छत्रधारी यादव पिता कमल महतो
				1062/3	निजी	टॉड	0.010	40.469	रामचन्द्र महतो पिता स्व० चमर महतो
				1062/4	निजी	टॉड	0.185	748.685	रामचन्द्र महतो पिता स्व० चमर महतो
				1062/5	निजी	टॉड	0.020	80.939	गोपाल यादव महेश यादव पिता स्व० तिलक यादव एक अंश समान वो मो० कौशल्या पति स्व० मित्रा प्रसाद यादव
				1062/6	निजी	टॉड	0.070	283.286	गोपाल यादव महेश यादव पिता स्व० तिलक यादव वो मो० कौशल्या पति स्व० मित्रा प्रसाद यादव
				1063/1	निजी	टॉड	0.040	161.878	मो० कौशल्या पति मित्रा प्रसाद यादव वो गोपाल यादव वो महेश यादव पिता स्व० तिलक यादव
				1063/2	निजी	टॉड	0.030	121.408	श्रीमति साहो देवी पति बासदेव राम
				1064	निजी	टॉड	0.150	607.042	श्री राम पिता बासदेव राम
				1072	निजी	टॉड	0.080	323.756	रामु यादव पिता स्व० खेमन महतो
				1065	निजी	टॉड	0.040	161.878	श्रीमति साहो देवी पति बासदेव राम
				1071	निजी	टॉड	0.010	40.469	अज्ञात
				1073/1	निजी	टॉड	0.060	242.817	जगदीश महतो पिता भोला महतो
				1073/2	निजी	टॉड	0.020	80.939	महावीर यादव पिता स्व० भोला महतो
				1073/3	निजी	टॉड	0.020	80.939	डेगन यादव वो फुलाकी यादव वो दुलार यादव पिता स्व० झमन महतो
				1073/4	निजी	टॉड	0.020	80.939	डेगन यादव वो फुलाकी यादव वो दुलार यादव पिता स्व० झमन महतो
				1091/1	निजी	टॉड	0.025	101.174	जगदीश प्रसाद पिता स्व० पुनीत महतो
				1091/2	निजी	टॉड	0.055	222.582	गोपाल यादव वो महेश यादव पिता स्व० तिलक महतो वो मो० कौशल्या पति स्व० मित्रा प्रसाद यादव वो मो० नैना पति स्व० युगल यादव वो तुलसी वो प्रभु यादव पिता स्व० धरम महतो
				1091/3	निजी	टॉड	0.020	80.939	डेगन महतो वो फुलाकी महतो वो दुलार महतो पिता स्व० झमन महतो
				1092	निजी	टॉड	0.040	161.878	डेगन महतो वो फुलाकी महतो वो दुलार महतो पिता स्व० झमन महतो
				1093	निजी	टॉड	0.050	202.347	डेगन महतो वो फुलाकी महतो वो दुलार महतो पिता स्व० झमन महतो
				1094/1	निजी	टॉड	0.010	40.469	कामेश्वर राम पिता स्व० हरलाल राम
				1094/2	निजी	टॉड	0.030	121.408	सीता राम सिंह पिता चपन राम
				1095/1	निजी	टॉड	0.025	101.174	शंकर राम पिता स्व० रामधन राम
				1095/2	निजी	टॉड	0.025	101.174	ब्रह्मदेव रा. वो प्रम राम वो महेन्द्र राम पिता स्व० गोवर्धन राम
				1096	निजी	टॉड	0.090	364.225	किशुन महतो वो जानकी महतो वो चोली महतो वो बोधि महतो पिता स्व० नुनू महतो श्रीमती साहो देवी पति वासुदेव राम
				1185/1	निजी	टॉड	0.040	161.878	यादव वो प्रभु यादव पिता स्व० धरम महतो।
				1185/2	निजी	टॉड	0.020	80.939	जगत यादव पिता स्व० जितन महतो
				1185/3	निजी	टॉड	0.010	40.469	रूपन यादव वो कल्पू यादव पिता स्व० ललीत यादव।

1	2	3	4	5	6	7	8		9
				1185/4	निजी	टॉड	0.010	40.469	किंसुन यादव वो जानकी यादव वो चौली यादव वो बोधी यादव पिता स्व० नुनू महतो ।
				1186/1	निजी	धान	0.135	546.338	राजेश्वर सिंह पिता ग्याजीत राम
				1186/2	निजी	धान	0.045	182.113	महेन्द्र सिंह पिता गोवर्धन राम
				1187/1	निजी	भीण्ड	0.010	40.469	मो० भगिया पति स्व० टिको यादव
				1187/2	निजी	भीण्ड	0.010	40.469	मो० भिखनी पति स्व० भिखारी यादव
				1194/1	निजी	धान	0.040	161.878	मो० भगिया पति स्व० टिको यादव
				1194/2	निजी	धान	0.040	161.878	मो० भिखनी पति स्व० भिखारी यादव
				1195	निजी	आर	0.010	40.469	मो० बुटनी पिता स्व० मंगर साव
				1196	निजी	धान	0.250	1011.736	मो० बुटनी पिता स्व० मंगर साव
				1197	निजी	धान	0.010	40.469	अज्ञात
				1236/1	निजी	धान	0.050	202.347	मो० भगिया पति स्व० टिको यादव
				1236/2	निजी	धान	0.050	202.347	मो० भिखनी पति स्व० भिखारी यादव
				1235/1	निजी	धान	0.010	40.469	मो० भगिया पति स्व० टिको यादव
				1235/2	निजी	धान	0.010	40.469	मो० भिखनी पति स्व० भिखारी यादव
				1237/1	निजी	धान	0.125	505.868	मो० भगिया पति स्व० टिको यादव
				1237/2	निजी	धान	0.125	505.868	मो० भिखनी पति स्व० भिखारी यादव
				1238/1	निजी	धान	0.050	202.347	गोपाल यादव पिता स्व० जगतम यादव
				1238/2	निजी	धान	0.050	202.347	गोपाल यादव वो महेश यादव ।
				1240	निजी	धान	0.030	121.408	उत्तीम महतो पिता स्व० नन्हकु महतो
				1241	निजी	धान	0.020	80.939	चन्द्रीका राम पिता स्व० बैजु राम
				1243	निजी	धान	0.020	80.939	नागेश्वरी देवी पति उत्तीम महतो
				1244/1	निजी	धान	0.035	141.643	गोपाल यादव पिता स्व० जगतम महतो
				1244/2	निजी	धान	0.035	141.643	मो० मैनवा पति स्व० युगल यादव एक अंश वो तुलसी यादव वो प्रभु यादव पिता स्व० धरम महतो दो
				1245/1	निजी	धान	0.100	404.694	उत्ताम महतो पिता स्व० नन्हकु महतो
				1245/2	निजी	धान	0.100	404.694	सुभा देवी पति नरेश प्रसाद यादव एक अंश वो संगीता देवी पति शंकर प्रसाद यादव ।
				1249	निजी	धान	0.090	364.225	नागो राम वो बासदेव राम पिता स्व० चौतरीराम वो सुखदेव राम वो सुरेश राम वो राजकिशोर राम वो महेश कुमार सिंह पिता स्व० उभर राम ।
				1247	निजी	टॉड	0.010	40.469	मनोज सिंह वो अजय सिंह पिता स्व० द्वारीका सिंह
				1248	निजी	टॉड	0.010	40.469	सीता राम सिंह पिता स्व० पचन राम
				1250	निजी	टॉड	0.020	80.939	रामचन्द्र यादव पिता स्व० चमन महतो
				1251	निजी	टॉड	0.030	121.408	गोपाल यादव वो महेश यादव पिता स्व० तालक यादव
				1252	निजी	टॉड	0.020	80.939	नागो राम वो बासदेव राम पिता स्व० चौतरीराम वो सुखदेव राम वो सुरेश राम वो राजकिशोर राम वो महेश कुमार सिंह पिता स्व० उभर राम
				1253	निजी	टॉड	0.030	121.408	बुधन महतो वगैरह पिता स्व० पुनीत महतो
				1254	निजी	टॉड	0.030	121.408	छोटु राम वो गणेश राम पिता स्व० दहन राम ।
				1255	निजी	टॉड	0.020	80.939	श्री सुजी कुमार यादव पिता श्री खिरोधर यादव
				1256	निजी	टॉड	0.020	80.939	श्री सुजीत कुमार यादव पिता श्री खिरोधर यादव
				1257	निजी	टॉड	0.020	80.939	फिरंगी राम वगैरह पिता स्व० मंगर साव
				1329	निजी	टॉड	0.020	80.939	मो० केसरी पति स्व० गोवर्धन राम

1	2	3	4	5	6	7	8		9
				1330/1	निजी	टॉड	0.025	101.174	बुधन महता वा कलश गाप वा जगदीश प्रसाद पिता पुनीत महतो कमल यादव पिता स्व० जितन महतो वो रुपन यादव पिता स्व० ललीत महतो
				1330/2	निजी	टॉड	0.025	101.174	श्रीमति पानपति पति श्री काशी लाल। मोपाल यादव वो महेश यादव पिता स्व० तिलक यादव वो मो० कौशल्या पति स्व० मित्रा प्रसाद यादव
				1331/1	निजी	टॉड	0.020	80.939	श्रीमति पानपति पति श्री काशी लाल
				1331/2	निजी	टॉड	0.020	80.939	जगदीश महतो पिता स्व० भोला महतो
				1371	निजी	टॉड	0.010	40.469	जगदीश महतो पिता स्व० भोला महतो
				1372	निजी	टॉड	0.020	80.939	मो० माया पति स्व० बैजनाथ प्रसाद
				1373	निजी	टॉड	0.020	80.939	शंकर यादव पिता स्व० टेका महतो वो नन्दु महतो पिता स्व० किसुन महतो
				1374	निजी	टॉड	0.010	40.469	प्रमेश्वर यादव पिता नन्दु यादव
				1375	निजी	टॉड	0.010	40.469	मो० माया पति स्व० बैजनाथ प्रसाद
				1377/1	निजी	टॉड	0.030	121.408	श्री मति सीता देवी पति जगदीश प्रसाद
				1377/2	निजी	टॉड	0.020	80.939	मो माया पति स्व० बैजनाथ प्रसाद
				1378/1	निजी	टॉड	0.010	40.469	
				1378/2	निजी	टॉड	0.010	40.469	सुखदेव सिंह वो सुरेश सिंह वो राजकिशोर सिंह वो महेश कुमार सिंह पिता स्व० उमर राम । चन्द्रिका राम पिता स्व० बजु राम
				1379/1	निजी	टॉड	0.010	40.469	
				1379/2	निजी	टॉड	0.010	40.469	देवधारी राम पिता हरीलाल राम
				1380	निजी	टॉड	0.020	80.939	गोविन्द राम पिता स्व० फूलचन्द राम
				1381/1	निजी	टॉड	0.015	60.704	ब्रह्मदेव सिंह वो प्रेम सिंह वो महेन्द्र सिंह पिता स्व० गोवर्धन राम ।
				1381/2	निजी	टॉड	0.015	60.704	चेतनारायण सिंह वो तापेश्वर सिंह वो गंगाधर राम पिता स्व० शिवचरण सिंह
				1384	निजी	टॉड	0.020	80.939	श्रीमती मुली देवी पति शिवचरण सिंह आ प्रभु राम पिता स्व० शिवा राम
				1385/1	निजी	टॉड	0.005	20.235	
				1385/2	निजी	टॉड	0.005	20.235	धिरेंद्र कुमार पिता आदित्य सिंह
				1385/3	निजी	टॉड	0.010	40.469	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह पिता स्व० राम किसुन सिंह
				1386	निजी	टॉड	0.020	80.939	रामचन्द्र राम वो जुगेश्वर राम वो रामशरण वो कुलदीप सिंह पिता स्व० मुन्ना राम चार अश समान वो प्रदीप सिंह वो अवध सिंह वो कारु सिंह पिता भगत राम वो मनोज सिंह वो अजय सिंह पिता स्व० हारीका राम ।
				1387	निजी	टॉड	0.020	80.939	नन्दु महतो पिता स्व० किशुन महतो खतियानी रैयत, केवालाधारी रैयत - श्री महेन्द्र प्रसाद यादव पिता श्री केशव यादव ।
				1388	निजी	टॉड	0.020	80.939	श्री महेन्द्र प्रसाद यादव पिता श्री केशव यादव ।
				1389	निजी	टॉड	0.020	80.939	धनु यादव पिता स्व० रघु यादव
				1390	निजी	टॉड	0.020	80.939	तिलक महतो पिता स्व० ठकुरी महतो वो मन्दु कुमार यादव वो पवन कुमार यादव पिता चोलो यादव वो महेन्द्र यादव पिता स्व० बोधी महतो वो राजु यादव पिता शनु महतो ।
				1391	निजी	टॉड	0.020	80.939	विजय यादव पिता सुगन महतो वो छोटन कुमार यादव वो अशोक कुमार यादव पिता मुकेश यादव वो राजदेव यादव पिता सुगन महतो वो तल्लो यादव वो विनोद यादव वो जगदीश यादव पिता स्व० खेल महतो ।
				1392	निजी	टॉड	0.020	80.939	फागुनी देवी पति खेदम गोप

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				1394	निजी	टॉड	0.010	40 469	चन्द्रीका राम पित बैजु राम वो सरजु राम वो दोदी राम पिता स्व० मिठुराम वो सुरेन्द्र राम वो अनील राम वो उदय राम पिता स्व० शनु राम वो प्रमेश्वर राम वो कामेश्वर राम पिता स्व० हरिलाल राम
				1395	निजी	टॉड	0.010	40 469	राजेश यादव वो रजी कुमार यादव वो सजीत कुमार यादव पिता स्व० श्याम यादव वो कुजील यादव वो छोटन यादव पिता स्व० भीखारी महतो
				1397/1	निजी	टॉड	0.005	20.235	उमर रविदास पिता स्व० बढन चमार
				1397/2	निजी	टॉड	0.005	20 235	महेश रविदास वो रामपति रविदास पिता नागेश्वर रविदास बलराम रविदास पिता मंगरु रविदास ।
				1398	निजी	टॉड	0.010	40.469	शशि राम पिता राजेन्द्र राम वो विजेन्द्र राम वो बंगाली राम वो श्याम राम समान पिता स्व० गन्दौरी राम वो आशिष राम वो विकास राम पिता स्व० सिकन्दर राम ।
				1401	निजी	धान	0.050	202 347	शशि राम पिता राजेन्द्र राम वो विजेन्द्र राम वो बंगाली राम वो श्याम राम समान पिता स्व० गन्दौरी राम वो आशिष राम वो विकास राम पिता स्व० सिकन्दर राम ।
						कुल	7.010	28369 081	
		(2) कदवा		14	निजी	धान	0.230	930 797	हरिहर सिंह पिता स्व० महादेव सिंह वो मनोज कुमार खानी वो गजीत कुमार खानी पिता स्व० तुलसी सिंह
				15	निजी	धान	0.280	1133 144	ईसर महतो वो भान्जो महतो वो पोखराज महतो पिता स्व० लोहर महतो
						कुल	0.510	2063 942	
		पदमा	(1) करमाटार	397	निजी	धान	0.030	121 409	मो० मुलिया पति स्व० जगदीश महतो
				400	निजी	धान	0.230	930 797	मो० मुलिया पति स्व० जगदीश महतो
				401	निजी	धान	0.460	1861 504	मो० मुलिया पति स्व० जगदीश महतो वो राजकुमार प्रसाद मेहता वो जितेन्द्र कुमार मेहता वो भूपेन्द्र कुमार मेहता पिता स्व० जगदीश महतो
				402	निजी	धान	0.360	1456 900	मो० मुलिया पति स्व० जगदीश महतो वो राजकुमार प्रसाद मेहता वो जितेन्द्र कुमार मेहता वो भूपेन्द्र कुमार मेहता पिता स्व० जगदीश महतो
				403	निजी	धान	0.420	1699 717	मो० मुलिया पति स्व० जगदीश महतो वो राजकुमार प्रसाद मेहता वो जितेन्द्र कुमार मेहता वो भूपेन्द्र कुमार मेहता पिता स्व० जगदीश महतो
				392	निजी	धान	0.060	242 817	मो० मुलिया पति स्व० जगदीश महतो वो राजकुमार प्रसाद मेहता वो जितेन्द्र कुमार मेहता वो भूपेन्द्र कुमार मेहता पिता स्व० जगदीश महतो
				393	निजी	धान	0.060	242 817	मो० मुलिया पति स्व० जगदीश महतो
				388	निजी	टॉड	0.060	242 81	जितेन्द्र सिंह वो अर्जुन सिंह धर्गेरह निवासी ग्राम-- सरौनी जिला-- हजारीबाग
						कुल	1.680	6798 867	
		(2) रोमी		40/1	निजी	टॉड	0.025	10 174	गन्दौरी महतो वो प्रितम महतो पिता स्व० घमन महतो वो नेमचन्द महतो वो कैलाश महतो पिता स्व० हुलाश महतो ।
				40/2	निजी	टॉड	0.025	10 174	हरिहर सिंह पिता स्व० महादेव सिंह वो मो० समुद्री पति स्व० तुलसी सिंह ।
				40/3	निजी	टॉड	0.025	10 174	महेन्द्र सिंह पिता स्व० बासुदेव सिंह
				40/4	निजी	टॉड	0.010	4 146 3	बलराम प्रसाद मेहता पिता स्व० दुकन महतो

1	2	3	4	5	6	7	8		9
				40/5	निजी	टॉड	0.065	263.051	रोहन महतो वो ठाकुराज महतो वो जगलाल महतो पिता स्व० बुधन महतो
				42/1	निजी	टॉड	0.010	40.469	हरिहर सिंह पिता स्व० महादेव सिंह वो मो० समुद्री पति स्व० तुलसी सिंह ।
				42/2	निजी	टॉड	0.010	40.469	महेन्द्र सिंह पिता स्व० बासुदेव सिंह
				42/3	निजी	टॉड	0.010	40.469	महेन्द्र सिंह पिता स्व० बासुदेव सिंह हरिहर सिंह पिता स्व० महादेव सिंह वो मो० समुद्री पति स्व० तुलसी सिंह ।
				42/4	निजी	टॉड	0.020	80.939	कैदार प्रसाद वर्मा पिता स्व० बासुदेव राम
				43/1	निजी	टॉड	0.040	161.878	जगरनाथ सिंह पिता स्व० जगदीश सिंह
				43/2	निजी	टॉड	0.010	40.469	निरंदर मेहता पिता स्व० चेतलाल महतो वो रामलखन महतो वो काशी महतो वो राधेश्याम महतो पिता स्व० रेबा महतो
				43/3	निजी	टॉड	0.010	40.469	मेघलाल महतो वो पोखराज महतो वो तिलक महतो पिता स्व० रेबा महतो ।
				44/1	निजी	टॉड	0.010	40.469	बसन्त नारायण मेहता वो अरूण गिर मेहता वो विजय कुमार मेहता वो अशोक कुमार मेहता पिता स्व० प्रमेश्वर महतो
				44/2	निजी	टॉड	0.010	40.469	जयलाल महतो पिता स्व० मधु महतो
				44/3	निजी	टॉड	0.020	80.939	श्रीमती सवेली देवी पति जगदीश राम
				45	निजी	टॉड	0.040	161.878	जयलाल महतो पिता मधु महतो वो कृष्णा प्रसाद मेहता वो अशोक प्रसाद मेहता वो बदरी महतो पिता स्व० बाबु महतो
				46/1	निजी	टॉड	0.013	50.587	महावीर महतो पिता स्व० नितल महतो
				46/2	निजी	टॉड	0.025	101.174	श्रीमती सरस्वती देवी पति नन्हक महतो
				46/3	निजी	टॉड	0.013	50.587	नन्हक महतो पिता स्व० नितल महतो
				47/1	निजी	टॉड	0.015	60.704	भुनेश्वर महतो पिता स्व० झबर महतो
				47/2	निजी	टॉड	0.015	60.704	बासुदेव महतो पिता स्व० लीलो महतो
				47/3	निजी	टॉड	0.040	161.878	बिहारी महतो पिता स्व० गिरधारी महतो
				47/4	निजी	टॉड	0.040	161.878	जयकिशोर मेहता वो गणेश महतो पिता स्व० बगाली महतो वो हरीनाथ महतो पिता स्व० बोधी महतो ।
				47/5	निजी	टॉड	0.040	161.878	नन्दु महतो पिता स्व० रूपचन्द महतो वो रामसहाय महतो पिता स्व० खिरोधर महतो वो राजु कुमार मेहता वो अशोक कुमार मेहता पिता स्व० केवल महतो वो जितेन्द्र कुमार मेहता पिता स्व० बिरु महतो
				47/6	निजी	टॉड	0.015	60.704	ईश्वर महतो पिता स्व० किशुन महतो वो लूकन महतो पिता स्व० बिशु महतो ।
				47/7	निजी	टॉड	0.075	303.521	अज्ञात
				65	निजी	टॉड	0.040	161.878	भेखलाल महतो पिता स्व० तोकल महतो
				66	निजी	धान	0.080	323.756	बोधराज महतो पिता स्व० सुकर महतो
				78	निजी	धान	0.010	40.469	जयलाल महतो पिता स्व० मधु महतो वो कृष्णा प्रसाद मेहता वो अशोक प्रसाद मेहता पिता स्व० घनश्याम महतो वो बिहारी महतो वो बदरी महतो पिता स्व० बाबु महतो ।
				79	निजी	धान	0.010	40.469	मो० जमनी पति स्व० रेबा महतो वो लखरा महतो वो छोटन महतो वो धनु महतो पिता स्व० प्रयाग महतो
				77	निजी	धान	0.060	242.817	अज्ञात
				80/1	निजी	धान	0.033	135.168	निरंदर मेहता पिता स्व० चेतलाल महतो वो रामलखन महतो वो काशी महतो वो राधेश्याम महतो पिता स्व० रेबा महतो वो पोखराज महतो वो तिलक महतो पिता स्व० रेबा महतो ।

1	2	3	4	5	6	7	8		9
				80/2	निजी	धान	0.033	134.763	रामप्रसाद महतो वो बदीनारायण मेहता पिता स्व० बन्धन महतो वो तालेश्वर मेहता वो लक्ष्मण कु० मेहता वो दिनेश कुमार पिता स्व० मुलो महतो ।
				80/3	निजी	धान	0.033	134.763	प्रमेश्वर महतो वो सरयु महतो वो जादो महतो पिता स्व० रामदयाल महतो वो ओमकिशोर महतो पिता स्व० छट्टू महतो रोहन महतो वो महेश महतो पिता स्व० चेतलाल महतो समान वरे नागेश्वर महतो पिता स्व० शिबल महतो वो सोना महतो पिता स्व० चरण महतो वो बोधराज महतो वो रामचन्द्र महतो वो उमाकान्त महतो पिता स्व० झमन महतो
				81/1	निजी	धान	0.033	134.763	निरंदर मेहता पिता स्व० चेतलाल महतो वो रामलखन महतो वो काशी महतो वो राधेश्याम महतो पिता स्व० पेमन महतो समान वो पोखराज महतो वो तिले महतो पिता स्व० रेवा महतो ।
				81/2	निजी	धान	0.033	134.763	रामप्रसाद महतो वो बदीनारायण मेहता पिता स्व० बन्धन महतो वो तालेश्वर मेहता वो लक्ष्मण कु० मेहता वो दिनेश कुमार पिता स्व० मुलो महतो
				81/3	निजी	धान	0.033	135.168	प्रमेश्वर महतो वो सरयु महतो वो जादो महतो पिता स्व० रामदयाल महतो वो ओमकिशोर महतो पिता स्व० छट्टू महतो वो रोहन महतो वो महेश महतो पिता स्व० चेतलाल महतो वो नागेश्वर महतो पिता स्व० शिबल महतो वो सोना महतो पिता स्व० चरण महतो वो बोधराज महतो वो रामचन्द्र महतो वो उमाकान्त महतो पिता स्व० झमन महतो
				85/1	निजी	टोंड	0.025	101.174	जयकिशोर मेहता पिता स्व० बंगाली महतो वो चेतलाल महतो वो बासुदेव महतो पिता स्व० दासो महतो
				85/2	निजी	टोंड	0.025	101.174	नन्दु महतो वो रामसहाय महतो पिता स्व० खिरोधर महतो वो चेतलाल महतो वो बासुदेव महतो पिता स्व० दासो महतो ।
				91/1	निजी	टोंड	0.010	40.469	अर्जुन महतो पिता स्व० किसुन महतो
				91/2	निजी	टोंड	0.010	40.469	मेघन महतो पिता स्व० दुलो महतो
				691	निजी	टोंड	0.020	80.939	भुनेश्वर महतो वो किशोरी महतो वो कैला महतो पिता स्व० तुलसी महतो ।
				690/1	निजी	टोंड	0.050	202.347	सुजित कुमार राणा सत्यजीत राणा पिता बंशी प्रसाद राणा
				690/2	निजी	टोंड	0.235	951.032	अखिलेश्वर राणा पिता स्व० सुदन मिस्त्री
				690/3	निजी	टोंड	0.035	141.643	सूर्यनारायण महथा पिता स्व० धरम महतो
				689/1	निजी	टोंड	0.020	80.939	निरंदर मेहता पिता स्व० चेतलाल महतो वो रामलखन महतो वो काशी महतो वो राधेश्याम महतो पिता स्व० पेमन महतो
				689/2	निजी	टोंड	0.040	161.878	मोहन सिंह पिता स्व० प्रयाग सिंह
				688/1	निजी	टोंड	0.030	121.408	मनोज कुमार राणा पिता स्व० नागेश्वर राणा
				688/2	निजी	टोंड	0.030	121.408	मिनेश्वर राणा पिता स्व० सुदन राणा
				686	निजी	टोंड	0.100	404.694	अखिलेश्वर राणा पिता स्व० सुदन मिस्त्री
				685	निजी	टोंड	0.060	242.817	अखिलेश्वर राणा पिता स्व० सुदन मिस्त्री
				684/1	निजी	टोंड	0.015	60.704	अखिलेश्वर राणा पिता स्व० सुदन मिस्त्री
				684/2	निजी	टोंड	0.035	141.643	सूर्यनारायण महथा पिता स्व० धरम महतो
				683	निजी	टोंड	0.060	242.817	सूर्यनारायण महथा पिता स्व० धरम महतो
				682	निजी	टोंड	0.020	80.939	सूर्यनारायण महथा पिता स्व० धरम महतो
				681/1	निजी	टोंड	0.045	182.113	अज्ञात
				681/2	निजी	टोंड	0.023	91.056	सरजु राणा पिता स्व० लीलो मिस्त्री
				681/3	निजी	टोंड	0.023	91.056	नुनी देवी पति दिना राणा
				680/1	निजी	टोंड	0.045	182.113	अज्ञात
				680/2	निजी	टोंड	0.023	91.056	नुनी देवी पति दिना राणा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				680/3	निजी	टॉड	0.023	91.056	सरजु राणा पिता स्व० लीलो मिस्त्री
				679	निजी	टॉड	0.060	242.817	सरजु राणा पिता स्व० लीलो मिस्त्री
				678	निजी	टॉड	0.020	80.939	राजेन्द्र मेहता वो प्रभु मेहता पिता स्व० छकौड़ी महतो वो तरुण देवी पिता द्वारिका महतो
				677/1	निजी	टॉड	0.025	101.174	ईश्वर महतो पिता स्व० किशुन महतो
				677/2	निजी	टॉड	0.025	101.174	प्रेम महतो पिता स्व० किशुन महतो
				676/1	निजी	टॉड	0.023	94.699	भुनेश्वर प्रसाद मेहता वो हेमराज प्रसाद मेहता वो हुलास प्रसाद मेहता पिता स्व० झबर महतो ।
				676/2	निजी	टॉड	0.023	94.294	बिहारी महतो पिता स्व० गिरधारी महतो
				676/3	निजी	टॉड	0.023	94.294	तरुण देवी पिता द्वारिका महतो
				675	निजी	टॉड	0.030	121.408	हुलाल पाण्डे पिता स्व० भुगल पाण्डे भृगुनाथ शर्मा वो ब्रह्मदेव शर्मा पिता स्व० ओमकिशोर शर्मा वो संतोषशर्मा पिता स्व० टेकनारायण शर्मा वो मो० राधिका पति स्व० खरोधर शर्मा वो रामेश्वर शर्मा ।
				1363/1	निजी	टॉड	0.030	121.408	जयलाल महतो पिता स्व० मधु महतो
				1363/2	निजी	टॉड	0.030	121.408	कृष्णा प्रसाद मेहता वो अशोक प्रसाद मेहता पिता स्व० घनश्याम महतो वो बिहारी महतो पिता स्व० बाबु महतो ।
				558	निजी	टॉड	0.020	80.939	सुखदेव सिंह पिता स्व० जगदीश सिंह
				557	निजी	टॉड	0.020	80.939	राधे महतो पिता स्व० लोधर महतो वो काली महतो वो गुडा महतो वो छोटी महतो पिता स्व० भुनेश्वर महतो ।
				556/1	निजी	टॉड	0.005	20.235	मो० बिन्दवा पति स्व० गुजा महतो वो कैला महतो वो नरेश महतो वो रीतन महतो वो पिरु महतो पिता स्व० झबर महतो
				556/2	निजी	टॉड	0.005	20.235	प्रमेश्वर महतो पिता स्व० दरबारी महतो
				550/1	निजी	टॉड	0.025	101.174	श्रीमती धनेश्वरी देवी पति प्रमेश्वर महतो
				550/2	निजी	टॉड	0.025	101.174	रामकुमार मेहता पिता भेखलाल महतो
				549	निजी	टॉड	0.010	40.469	महावीर महतो पिता स्व० निरप महतो
				548	निजी	टॉड	0.010	40.469	सीताराम मेहता वो प्रभु मेहता वो निरंदर मेहता पिता स्व० चेतलाल महतो
				540/1	निजी	टॉड	0.003	10.117	काशी महतो पिता स्व० पेमन महतो ।
				540/2	निजी	टॉड	0.008	30.352	रोहन महतो वो महेश महतो पिता स्व० चेतलाल महतो ।
				540/3	निजी	टॉड	0.010	40.469	नागेश्वर महतो पिता स्व० शिबल महतो
				541	निजी	टॉड	0.020	80.939	तालेश्वर प्र० मेहता वो लक्ष्मण कु० मेहता वो दिनेश कुमार पिता स्व० मुलो महतो ।
				542	निजी	टॉड	0.020	80.939	जयनारायण साव पिता स्व० मंगर साव
				546	निजी	टॉड	0.010	40.469	रामप्रसाद महतो वो बद्रीनारायण मेहता पिता स्व० बन्धन महतो वो तालेश्वर मेहता वो लक्ष्मण कु० मेहता वो दिनेश कुमार पिता स्व० मुलो महतो ।
				545	निजी	प० कदीम	0.040	161.878	तालेश्वर मेहता वो लक्ष्मण कु० मेहता वो दिनेश कुमार पता स्व० मुलो महतो ।
				544	निजी	टॉड	0.010	40.469	नागेश्वर साव पिता स्व० कंगन साव वो पिन्दू कुमार वगैरह पिता स्व० इन्द्रजीत साव ।
				103	निजी	टॉड	0.010	40.469	अज्ञात
				100	निजी	टॉड	0.010	40.469	मो० जमनी पति स्व० रंभा महतो वो लखराज महतो वो छोटन महतो वो धनु महतो पिता स्व० प्रयाग महतो ।
				101	निजी	टॉड	0.010	40.469	मो० जमनी पति स्व० रंभा महतो वो लखराज महतो वो छोटन महतो वो धनु महतो पिता स्व० प्रयाग महतो

1	2	3	4	5	6	7	8		9
				1368/1	निजी	टॉड	0.020	80 939	भेखलाल महतो पिता स्व0 तोकल महतो
				1368/2	निजी	टॉड	0.020	80 939	उमेश कुमार मेहता वो विनोद कुमार मेहता पिता स्व0 रघु महतो वो सुरेन्द्र मेहता वो गयाजीत मेहता वो निरदर मेहता पिता स्व0 हेमलाल महतो वो बासदेव महतो पिता स्व0 जानकी महतो ।
				99	निजी	टॉड	0.040	161 878	मो0 जमनी पति स्व0 रबा महतो वो लखराज महतो वो छोटन महतो वो धनु महतो पिता स्व0 प्रयाग महतो
				98/1	निजी	धान	0.005	20 235	भेखलाल महतो पिता स्व0 तोकल महतो
				98/2	निजी	धान	0.005	20 235	उमेश कुमार मेहता वो विनोद कुमार मेहता पिता स्व0 रघु महतो वो सुरेन्द्र मेहता वो गयाजीत मेहता वो निरदर मेहता पिता स्व0 हेमलाल महतो वो बासदेव महतो पिता स्व0 जानकी महतो ।
				93/1	निजी	धान	0.110	445 164	भेखलाल महतो पिता स्व0 तोकल महतो चार अंश
				93/2	निजी	धान	0.110	445 164	उमेश कुमार मेहता वो विनोद कुमार मेहता पिता स्व0 रघु महतो वो सुरेन्द्र मेहता वो गयाजीत मेहता वो निरदर मेहता पिता स्व0 हेमलाल महतो वो बासदेव महतो पिता स्व0 जानकी महतो ।
				94/1	निजी	धान	0.055	222 582	ईश्वर प्रसाद मेहता वो सुरेश मेहता पिता स्व0 प्रयाग महतो
				94/2	निजी	धान	0.055	222 582	बैजनाथ प्रसाद मेहता वो रामनाथ महतो पिता स्व0 काशी महतो वो कैलाशपति मेहता पिता स्व0 हरिहर महतो ।
				95/1	निजी	धान	0.015	60 704	ईश्वर प्रसाद मेहता वो सुरेश मेहता पिता स्व0 प्रयाग महतो
				95/2	निजी	धान	0.015	60 704	बैजनाथ प्रसाद मेहता वो रामनाथ महतो पिता स्व0 काशी महतो वो कैलाशपति मेहता पिता स्व0 हरिहर महतो ।
				674/1	निजी	टॉड	0.050	202 347	विजय मेहता वो आनन्दमोहन पिता स्व0 नागेश्वर महतो
				674/2	निजी	टॉड	0.030	121 408	देवधारी महतो पिता स्व0 महादेव महतो
						कुल	3.120	12626 467	
		(3) सुरजपुरा	2/1	निजी	धान	0.060	242 817	बसन्त नारायण महथा पिता स्व0 जगदीश महतो	
			2/2	निजी	धान	0.060	242 817	राधेश्याम मेहता पिता स्व0 रामेश्वर महतो	
			316/1	निजी	धान	0.037	148 118	रघु महतो वो सरजु महतो वो भुनेश्वर महतो पिता स्व0 निरप महतो ।	
			316/2	निजी	धान	0.037	148 118	लालो महतो पिता गेन्दो महतो वो मेघन महतो पिता इन्दो महतो ।	
			316/3	निजी	धान	0.037	148 928	प्रयाग महतो पिता स्व0 रूपन महतो	
			3	निजी	धान	0.050	202 347	महेन्द्र सिंह वगैरह पिता स्व0 बासदेव राम वो हरिहर सिंह पिता स्व0 महादेव राम वो मो0 दुलारी पति स्व0 तुलसी सिंह वो मोहन सिंह पिता स्व0 प्रयाग राम ।	
			4/1	निजी	धान	0.015	60 704	सूरज नारायण महथा पिता धरम महतो	
			4/2	निजी	धान	0.005	20 235	खेमलाल महतो वो बासो महतो पिता स्व0 अनथ महतो वो बंगाली महतो वो गजाधर महतो वो सीताराम महतो पिता स्व0 सहदेव महतो ।	
			6/1	निजी	धान	0.010	40 469	गिरधारी महथा वो टीकेश्वर महथा वो सुरजनारायण महथा पिता स्व0 धरम महतो	
			6/2	निजी	धान	0.010	40 469	मोती महतो पिता स्व0 गंखी महतो	
			6/3	निजी	धान	0.010	40 469	कौलेश्वर मेहता वो परमेश्वर मेहता वो गोविन्द मेहता वो राजेन्द्र मेहता पिता स्व0 वजीर महतो	
			6/4	निजी	धान	0.010	40 469	बिनोद कुमार मेहता पिता स्व0 डिहल महतो	

1	2	3	4	5	6	7	8		9
				7/1	निजी	धान	0.023	91.056	बंगाली मेहता वो गजाधर मेहता वो सीताराम मेहता पिता सहादेव महतो
				7/2	निजी	धान	0.018	70.822	खेमलाल महतो पिता स्व० अनथ महतो वो बंगाली महतो वो गजाधर महतो वो सीताराम महतो पिता स्व० सहदेव महतो वो बासदेव महतो पिता अनथ महतो ।
				9/1	निजी	धान	0.020	80.939	अर्जून प्रसाद मेहता वो शिवशंकर प्रसाद मेहता पिता महावीर महतो
				9/2	निजी	धान	0.020	80.939	शशिभूषण सिंह पिता स्व० लाटो सिंह
				9/3	निजी	धान	0.020	80.939	दशरथ सिंह वो सुरेश सिंह वो रामबृक्ष सिंह पिता मंगर सिंह
				9/4	निजी	धान	0.020	80.939	बिश्वनाथ सिंह पिता भगन सिंह
				9/5	निजी	धान	0.030	121.408	बिश्वनाथ सिंह पिता भगन सिंह
				9/6	निजी	धान	0.030	121.408	दशरथ सिंह वो सुरेश सिंह वो रामबृक्ष सिंह पिता मंगर सिंह
				9/7	निजी	धान	0.030	121.408	शशिभूषण सिंह पिता स्व० लाटो सिंह वो कुकु सिंह पिता स्व० श्याम मोहन सिंह वो सोनु सिंह पिता मदन मोहन सिंह
				9/8	निजी	धान	0.030	121.408	राधो देवी पति मोती महतो
				10/1	निजी	धान	0.030	121.408	मेघन महतो पिता स्व० गुडा महतो
				10/2	निजी	धान	0.020	80.939	महरू गोप वो सुकर गोप पिता स्व० निरप गोप समान वो मनोज यादव पिता नागेश्वर यादव वो केदार गोप पिता होरिल गोप
				11	निजी	धान	0.010	40.469	महरू गोप वो सुकर गोप पिता स्व० निरप गोप समान वो मनोज यादव पिता नागेश्वर यादव वो केदार गोप पिता होरिल गोप
				53/1	निजी	धान	0.035	141.643	उमेश महतो वो राजकुमार महतो पिता कुजिल महतो समान वो भूखन महतो पिता नान्दो महतो
				53/2	निजी	धान	0.035	141.643	जगदीश महतो पिता हासो महतो
				54/1	निजी	धान	0.040	161.878	माधो महतो पिता टीको महतो
				54/2	निजी	धान	0.025	101.174	सुकर महतो पिता स्व० मंगर महतो
				54/3	निजी	धान	0.005	20.235	किशुन महतो पिता स्व० लालो महतो
				55	निजी	धान	0.010	40.469	अज्ञात
				56/1	निजी	धान	0.050	202.347	प्रयाग महतो वो रीतन महतो वो रोशन महतो वो लोकनाथ महतो वो जयलाल महतो वो जागेश्वर महतो वो जितेन्द्र महतो वो सुरेश महतो पिता स्व० रूपन महतो अंश समान
				56/2	निजी	धान	0.020	80.939	केदार महतो वो विजय महतो पिता नागेश्वर महतो समान वो अर्जून महतो वो नारायण महतो वो शंकर महतो वो प्रकाश महतो पिता लालो महतो
				57/1	निजी	धान	0.030	121.408	सरजू महतो पिता स्व० निरप महतो
				57/2	निजी	धान	0.030	121.408	रघु महतो स्व० निरप महतो
				57/3	निजी	धान	0.030	121.408	भुनेश्वर महतो पिता स्व० निरप महतो
				88	निजी	धान	0.010	40.469	बाढो महतो पिता बुलाकी महतो
				90	निजी	धान	0.020	80.939	माधो बढई वगैरह
				91/1	निजी	धान	0.015	60.704	गिरधारी महथा वो टीकेश्वर महथा वो सुरजनारायण महथा पिता स्व० धरम महतो
				91/2	निजी	धान	0.005	20.235	अशोक राणा पिता गडा बढई

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				92/1	निजी	धान	0.010	40.469	गिरधारी महथा वो टीकेश्वर महथा वो सुरजनारायण महथा पिता स्व० धरम महतो
				92/2	निजी	धान	0.010	40.469	हरिहर राणा पिता स्व० हिरो राणा
				93	निजी	धान	0.020	80.939	गिरधारी महथा वो टीकेश्वर महथा वो सुरजनारायण महथा पिता स्व० धरम महतो
				94/1	निजी	धान	0.010	40.469	छटू मिस्त्री पिता स्व० हिरो मिस्त्री
				94/2	निजी	धान	0.010	40.469	चन्दर मिस्त्री पिता स्व० बदन मिस्त्री वो हरिहर मिस्त्री पिता स्व० हिरो मिस्त्री
				95	निजी	धान	0.030	121.408	अशोक राम वो काशी राम वो प्रयाग राम पिता स्व० ईश्वर राम समान वो विश्वनाथ राम पिता भतु कहार वो महावीर राम पिता भतु कहार
				96	निजी	धान	0.030	121.408	दुलारचन्द राम पिता स्व० दमरी राम वो भते राम पिता भतु राम वगैरहसरयु राम वो कैलाश राम वो कनु राम वो छोटू राम
				98	निजी	धान	0.020	80.939	दुलारचन्द राम पिता स्व० दमरी राम
				99	निजी	धान	0.020	80.939	राधो देवी पति मोती महतो
				1192	निजी	धान	0.040	161.878	बशीधर कुमार पिता स्व० जादो राम
				1193	निजी	धान	0.020	80.939	बशीधर कुमार पिता स्व० जादो राम
				1194	निजी	धान	0.010	40.469	जीतन राम पिता नन्हक राम
				1195	निजी	धान	0.020	80.939	रतन सिंह वो राजु कुमार सिंह वो बिरजू कुमार सिंह पिता स्व० चुरामन राम
				1196	निजी	धान	0.060	242.817	सतोष कुमार पिता स्व० अमृत सिंह
				1200/1	निजी	धान	0.005	20.235	श्रीमती उषा देवी पति किशोर सिंह
				1200/2	निजी	धान	0.005	20.235	सतोष कुमार पिता स्व० अमृत सिंह
				1201/1	निजी	धान	0.005	20.235	सतोष कुमार पिता स्व० अमृत सिंह
				1201/2	निजी	धान	0.015	60.704	भूषण सिंह पिता स्व० लाटो सिंह
				1201/3	निजी	धान	0.010	40.469	बासदेव साव पिता स्व० भूखन साव ।
				1202/1	निजी	धान	0.005	20.235	कृष्णा प्रसाद पिता स्व० द्वारिका साव
				1202/2	निजी	धान	0.010	40.469	लखन साव वो लक्ष्मी साव पिता स्व० द्वारिका साव
				1202/3	निजी	धान	0.005	20.235	त्रिलोकीनाथ साहू वो भगवान प्रसाद पिता स्व० जानकी साव समान वो मो० सुबरा पति रामवृक्ष प्रसाद
				1203	निजी	धान	0.030	121.408	श्रीमती धनश्वरी देवी पति भगवान प्रसाद वो मो० सुबरा पति स्व० रामवृक्ष साव
						कुल	1.400	5665.722	
			(4) परतन	1404	निजी	धान दो	0.120	485.633	सच्चिदानंद सिंह, वो हरिश कुमार, पिता स्व० ब्रह्मदेव सिंह वो चन्द्रदेव सिंह वो कपिलदेव सिंह वो अजय सिंह पिता स्व० सुखदेव राम वो मो० पूनम पति स्व० श्रीदेव सिंह ।
				1406	निजी	धान दो	0.090	354.225	जंगबहादुर सिंह वो अशोक सिंह पिता स्व० रामेश्वर राम वो लखन सिंह पिता स्व० कनी राम
				1407/1	निजी	धान दो	0.023	94.699	मे० आशा पति स्व० अर्जुन प्रसाद सिंह वो सहदेव सिंह वो महादेव सिंह वो सुरेन्द्र सिंह वो महेन्द्र सिंह वो विरेन्द्र सिंह पिता स्व० अमृत राम ।
				1407/2	निजी	धान दो	0.023	94.294	महेश्वर सिंह वो बशीधर कुमार वो मुरली सिंह पिता स्व० जादो राम ।
				1407/3	निजी	धान दो	0.023	94.294	सच्चिदानंद सिंह वो हरिश कुमार पिता स्व० ब्रह्मदेव सिंह वो चन्द्रदेव सिंह वो कपिलदेव सिंह वो अजय सिंह पिता स्व० सुखदेव राम वो मो० पूनम पति स्व० श्री देव सिंह ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				1412/1	निजी	धान दो	0.020	80.939	मो० आशा पति स्व० अर्जुन प्रसाद सिंह वो सहदेव सिंह वो महादेव सिंह वो सुरेन्द्र सिंह वो महेन्द्र सिंह वो विरेन्द्र सिंह पिता स्व० अमृत राम ।
				1412/2	निजी	धान दो	0.020	80.939	जंगबहादुर सिंह वो अशोक सिंह पिता स्व० रामेश्वर राम एक अंश समान वो लखन सिंह पिता स्व० कनी राम ।
				1413	निजी	धान दो	0.050	202.347	जंगबहादुर सिंह वो अशोक सिंह पिता स्व० रामेश्वर राम वो लखन सिंह पिता स्व० कनी राम ।
				1414	निजी	धान दो	0.040	161.878	सच्चिदानंद सिंह वो हरिश कुमार पिता स्व० ब्रह्मदेव सिंह वो चन्द्रदेव सिंह वो कपिलदेव सिंह वो अजय सिंह पिता स्व० सुखदेव राम वो मो० पूनम पति स्व० श्री देव सिंह ।
				1419/1	निजी	धान दो	0.060	242.817	वैद्यनाथ महतो पिता स्व० काशीनाथ महतो
				1419/2	निजी	धान दो	0.060	242.817	रामनाथ महतो पिता स्व० काशीनाथ महतो
				1421/1	निजी	धान दो	0.013	50.587	अर्जुन प्रसाद मेहता पिता स्व० महावीर महतो
				1421/2	निजी	धान दो	0.013	50.587	शिवशंकर मेहता पिता स्व० महावीर महतो
				1421/3	निजी	धान दो	0.010	40.469	राधेश्याम मेहता पिता स्व० रामेश्वर महतो
				1422/1	निजी	धान दो	0.023	91.056	राधेश्याम मेहता पिता स्व० रामेश्वर महतो
				1422/2	निजी	धान दो	0.020	80.939	कैलाशपति मेहता पिता स्व० हरिहर महतो
				1422/3	निजी	धान दो	0.023	91.056	त्रिवेणी महतो पिता स्व० उदी महतो
				1505	निजी	धान	0.020	80.939	मेखलाल महतो वो सेवा महतो वो कैला महतो वो बाली महतो पिता स्व० जुगाली महतो ।
				1506	निजी	धानदो	0.015	60.704	हेमराज महतो पिता स्व० टेकन महतो
				1507	निजी	धान	0.010	40.469	हेमराज महतो पिता स्व० टेकन महतो वो मितनारायण महतो वो वासुदेव महतो वो खगेश्वर महतो वो प्रवील महतो वो नन्दु महतो पिता स्व० दिलू महतो ।
				1509/1	निजी	धान	0.005	20.235	महेश्वर सिंह वो बंशीधर सिंह वो मुरली सिंह पिता स्व० जादो राम
				1509/2	निजी	धान	0.003	10.117	मो० आशा पति स्व० अर्जुन सिंह
				1509/3	निजी	धान	0.015	60.704	श्री मति सुशीला देवी पति सहदेव सिंह
				1509/4	निजी	धान	0.013	50.587	सच्चिदानंद सिंह वो हरिश कुमार पिता स्व० ब्रह्मदेव सिंह वो चन्द्रदेव सिंह वो कपिलदेव सिंह वो अजय सिंह पिता स्व० सुखदेव राम वो मो० पूनम पति स्व० श्री देव सिंह ।
				1825	निजी	धान दो	0.020	80.939	महेश प्रसाद मेहता वो छत्रधारी प्रसाद मेहता पिता स्व० जगलाल महतो
				1865	निजी	धान दो	0.010	40.469	महावीर महतो वो नेमधारी महतो वो नागेश्वर पिता स्व० जीवलाल महतो
				1866/1	निजी	धान दो	0.015	60.704	खेमलाल महतो वो बासुदेव महतो पिता अनन्त महतो वो बंगाली महतो वो गजाधर महतो वो सीताराम महतो पिता स्व० सहदेव महतो ।
				1866/2	निजी	धान दो	0.005	20.235	श्रीमति सोनिया देवी पति बासदेव महतो
				1871	निजी	धान दो	0.015	60.704	मो० पारो पति रूपलाल यादव एक अंश वो भादो यादव वो तुलेश्वर यादव पिता स्व० शिवा गोप ।
				1872	निजी	धान दो	0.010	40.469	श्री मति विमला देवी उर्फ मुनिया देवी पति केदारनाथ मेहता ।
				1873	निजी	धान दो	0.010	40.469	श्री मति विमला देवी उर्फ मुनिया देवी पति केदारनाथ मेहता ।
				1874	निजी	धान दो	0.020	80.939	श्री मति विमला देवी उर्फ मुनिया देवी पति केदारनाथ मेहता ।
				1875	निजी	धान दो	0.020	80.939	श्री मति विमला देवी उर्फ मुनिया देवी पति केदारनाथ मेहता ।

1	2	3	4	5	6	7	8		9
				1918	मिजी	धान दो	0.040	161.878	अशोक राम वो काशी राम वो प्रयाग राम पिता स्व० ईश्वर राम वो फाते राम वो महावीर राम पिता स्व० भानु राम ।
				1919/1	मिजी	धान दो	0.008	30.352	दुलारचन्द्र राम पिता स्व० दमरी राम ।
				1919/2	मिजी	धान दो	0.008	30.352	रामचन्द्र प्रसाद पिता खेमलाल महतो वो हुलास प्रसाद मेहता पिता स्व० भोलानाथ महतो वो बालेश्वर प्रसाद मेहता पिता बिपुल महतो ।
				1920	मिजी	धान दो	0.020	80.935	अशोक राम वो काशी राम वो प्रयाग राम पिता स्व० ईश्वर राम वो फाते राम वो महावीर राम पिता स्व० भानु राम ।
				1921	मिजी	धान दो	0.035	141.543	मैना देवी पिता इन्दर महतो
				1923	मिजी	धान दो	0.030	121.408	मोती महतो पिता गुरदी महतो
				1924/1	मिजी	धान दो	0.020	80.935	शिवशकर प्रसाद मेहता पिता स्व० महावीर महतो
				1924/2	मिजी	धान दो	0.020	80.935	अर्जुन प्रसाद मेहता पिता स्व० महावीर महतो
				2405/1	मिजी	धान दो	0.005	20.235	शिवशकर प्रसाद मेहता पिता स्व० महावीर महतो
				2405/2	मिजी	धान दो	0.005	20.235	अर्जुन प्रसाद मेहता पिता स्व० महावीर महतो
				2405/3	मिजी	धान दो	0.040	161.878	श्रीमति मैना देवी पति गणेश राम ।
				2405/4	मिजी	धान दो	0.004	20.235	श्रीमती प्रभावती देवी पति श्री भगवान साव शिवप्रसाद सोनार
				2405/5	मिजी	धान दो	0.004	20.235	श्रीमती प्रभावती देवी पति श्री भगवान साव शिवप्रसाद सोनार
				2405/6	मिजी	धान दो	0.005	20.235	शिवप्रसाद सोनार
				2405/7	मिजी	धान दो	0.008	30.352	शिवप्रसाद सोनार
				2405/8	मिजी	धान दो	0.008	30.352	दुलारचन्द्र राम पिता स्व० दमरी राम
				2405/9	मिजी	धान दो	0.010	40.469	मोती देवी साहू वो भगवान प्रसाद पिता स्व० जानकी साव वो गो० सुबरा पति स्व० रामकृष्ण प्रसाद ।
				2414/1	मिजी	धान दो	0.005	20.235	मोती महतो वो चेतो महतो पिता स्व० गेन्दो महतो
				2414/2	मिजी	धान दो	0.015	60.705	मोती जदुनाथ महतो पिता स्व० बोधराम महतो ।
						कुल	1.130	4273.047	श्रीमति धनया देवी पति बालेश्वर महतो ।
		(5) अरार					0.000	0.000	
		(6) जीहु		2245	मिजी	धान दो	0.700	2852.861	भुमेश्वर प्रसाद मेहता पिता गणेश महतो
				2250	मिजी	धान दो	0.020	80.935	भुमेश्वर प्रसाद मेहता पिता गणेश महतो
				2251	मिजी	धान दो	0.010	40.469	अज्ञात
				2253	मिजी	धान दो	0.050	242.817	भुमेश्वर प्रसाद मेहता पिता गणेश महतो
				2287	मिजी	धान दो	0.050	242.817	राम महतो वो प्रयाग वो रोशन वो लोकनाथ वो जदुनाथ वो जगेश्वर वो जितेन्द्र वो सुरेश पिता स्व० राम महतो वो लालो महतो पिता स्व० गेन्दो महतो वो मेघनाथ महतो पिता स्व० धनु महतो
				3065	मिजी	धान दो	0.170	687.951	महावीर महतो
				3102	मिजी	धान दो	0.010	40.469	लालो महतो पिता स्व० गेन्दो महतो
				3094	मिजी	धान दो	0.100	404.690	रघु महतो वो रघु महतो वो भुमेश्वर महतो पिता स्व० धनु महतो
				3095	मिजी	धान दो	0.050	242.817	लालो महतो पिता स्व० गेन्दो महतो
				3092	मिजी	धान दो	0.130	526.117	रघु महतो वो रघु महतो वो भुमेश्वर महतो पिता स्व० धनु महतो
				3093	मिजी	धान दो	0.560	2252.248	लालो महतो पिता स्व० गेन्दो महतो
				3084	मिजी	धान दो	0.140	567.951	रघु महतो वो रघु महतो वो भुमेश्वर महतो पिता स्व० धनु महतो
				3154	मिजी	धान दो	0.020	80.935	रघु महतो वो रघु महतो वो भुमेश्वर महतो पिता स्व० धनु महतो
				3154	मिजी	धान दो	0.100	404.690	रघु महतो वो रघु महतो वो भुमेश्वर महतो पिता स्व० धनु महतो

1	2	3	4	5	6	7	8		9
				2088	मिर्जा	मीण्ड	0.020	80.839	लाली महल पिता स्व० गेन्दो महल
				3086	मिर्जा	धाम	0.433	1740.186	लाली महल पिता स्व० गेन्दो महल
				3091	मिर्जा	दंड	0.260	1052.206	लाली महल पिता स्व० गेन्दो महल
						कुल	3.230	13071.631*	
		ईच्छाक	(1) पोखरिया				0.000	0.000	
			(2) डाली				0.000	0.000	

[फा. सं. भाराप्र/बीओटी/1919/13/2010]

सुमेर सिंह गुलिया, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th November, 2010

S.O. 2872(E).—Whereas by the notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways numbers S.O. 1602 (E), dated the 2nd July, 2010, S.O. 1711 (E), dated the 19th July, 2010, and S.O. 1936 (E), dated the 9th August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central government declared its intention to acquire the land specified in the Schedules annexed to the said notifications for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 33 on the stretch of land from Km.00.000 to Km.40.500 (Barhi-Hazaribagh Section) in Hazaribagh District in the State of Jharkhand;

And, whereas, the substance of the notifications has been published in the "Hindustan", dated the 31st July, 2010, the 24th August, 2010 & the 4th September, 2010, and "The Telegraph" dated the 25th August, 2010, under sub section (3) of section 3A of the said Act;

And, whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 0.00 to Km 40.500 (Barhi - Hazaribagh Section) on the National Highway No. 33 in District Hazaribagh in the State of Jharkhand.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area		Name of the person interested
							(In acres)	(In square meters)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
1	Hazaribagh	1. Barhi	(1) Khonrahar	730	Private	Tand	0.030	121.408	Smt Gango Devi W/o Nirmal Mahto
				731	Private	Tand	0.010	40.469	Smt Gango Devi W/o Nirmal Mahto
				733	Private	Tand	0.040	161.878	Smt Gango Devi W/o Nirmal Mahto
				734/1	Private	Tand	0.020	80.939	Kishnu Yadav and Janki yadav and Choli Yadav and Bodhi Yadav S/o Late Nunu Mahto
				734/2	Private	Tand	0.030	121.408	Iso Singh and Nageshwar Singh S/o Late Joba Singh
				735	Private	Tand	0.020	80.939	Kaila Yadav and Shambhu Yadav S/o Late Mangar yadav
				736/1	Private	Tand	0.010	40.469	Mo Bhikhani S/o Late Bhikhan Yadav
				736/2	Private	Tand	0.010	40.469	Mo Bhagiya S/o Tika Yadav
				737	Private	Tand	0.010	40.469	Sambhu Bhuiyan S/o Late Manu Bhuiyan one part and Khim Bhuiyan S/o Late Bishun Bhuiyan
				738	Private	Tand	0.030	121.408	Unknown
				739/1	Private	Tand	0.010	40.469	Kishnu Yadav and Janki yadav and Choli Yadav and Bodhi Yadav S/o Late Nunu Mahto
				739/2	Private	Tand	0.010	40.469	Kamat yadav S/o Late Jhan yadav
				741/1	Private	Tand	0.010	40.469	Nandu Yadav S/o Late Kishan Yadav
				741/2	Private	Tand	0.010	40.469	Shankar yadav S/o Late Tanka Yadav
				742	Private	Tand	0.010	40.469	Prasadi Yadav S/o Late Bholi Yadav
				743	Private	Tand	0.010	40.469	Kailash Gop S/o Late Punit Gop
				744	Private	Tand	0.010	40.469	Vijay Yadav and Rajdev Yadav S/o Late Sugan Yadav
				745	Private	Tand	0.010	40.469	Mo Dulari S/o Late Gandori Ram
				746	Private	Tand	0.010	40.469	Dgan Yadav and Phulaki Yadav and Dulari Yadav and Rajdev yadav S/o Late Jhaman Yadav
				747/1	Private	Tand	0.005	20.235	Gopal Yadav S/o Late Tilak Mahto and Mo Kaushliya S/o Late Mitra Prasad Yadav
				747/2	Private	Tand	0.005	20.235	Mo Manwa S/o Late Jugai yadav one part and Tulsu Yadav and Prabhu Yadav S/o Late Dharam Mahto
				748/1	Private	Tand	0.008	30.352	Basdev Ram S/o Late Chaturam and Sukdev Ram and Suresh Ram and Rajkishore Ram and Mahendra Kumar S/o Late Umar Ram
				748/2	Private	Tand	0.003	10.117	Jamuna Yadav S/o Late Lukan Yadav
				749	Private	Tand	0.010	40.469	Firangi Ram S/o Late Mangar Ram
				750	Private	Tand	0.010	40.469	Shambhu Bhuiyan S/o Late Manu Bhuiyan and Khiran Bhuiyan S/o Late Vishnu Bhuiyan
				751	Private	Tand	0.010	40.469	Jagdish Prasad S/o Late Punit Prasad
				752	Private	Tand	0.010	40.469	Mahendra Yada S/o Late Bodhi Mahto
				774	Private	Tand	0.010	40.469	Iso Singh and Nageshwar Singh S/o Late Joba Singh
				775	Private	Tand	0.010	40.469	Iso Singh and Nageshwar Singh S/o Late Joba Singh
				780	Private	Tand	0.010	40.469	Smt Ugni Devi S/o Kamal Mahto 1. Devial Yadav S/o Late Raghu Yadav 2. Sri Mahendra Prasad Yadav S/o Late Keso Gop 3. Sri Dinanath Yadav S/o Late Amrit Prasad Yadav 4. Rohit Yadav S/o Sri Chotelal Yadav
				781	Private	Tand	0.010	40.469	Smt Ugni Devi S/o Kamal Mahto 1. Devial Yadav S/o Late Raghu Yadav 2. Sri Mahendra Prasad Yadav S/o Late Keso Gop 3. Sri Dinanath Yadav S/o Late Amrit Prasad Yadav 4. Rohit Yadav S/o Sri Chotelal Yadav
				782	Private	Tand	0.010	40.469	Chatradhan Yadav Urf Karu Yadav S/o Sri Kamal Mahto 1. Devial Yadav S/o Late Raghu yadav 2. Sri Mahendra Pd. Yadav S/o Late Keso Gop 3. Sri Dinanath Yadav S/o Late Amrit Prasad Yadav 4. Rohit Yadav S/o Sri Chotelal Yadav
				783	Private	Tand	0.010	40.469	Chatradhan Yadav Urf Karu Yadav S/o Sri Kamal Mahto 1. Devial Yadav S/o Late Raghu yadav 2. Sri Mahendra Pd. Yadav S/o Late Keso Gop 3. Sri Dinanath Yadav S/o Late Amrit Prasad Yadav 4. Rohit Yadav S/o Sri Chotelal Yadav
				784	Private	Tand	0.010	40.469	Chatradhan Yadav Urf Karu Yadav S/o Sri Kamal Mahto 1. Devial Yadav S/o Late Raghu yadav 2. Sri Mahendra Pd. Yadav S/o Late Keso Gop 3. Sri Dinanath Yadav S/o Late Amrit Prasad Yadav 4. Rohit Yadav S/o Sri Chotelal Yadav
				785	Private	Tand	0.010	40.469	Chatradhan Yadav Urf Karu Yadav S/o Sri Kamal Mahto 1. Devial Yadav S/o Late Raghu yadav 2. Sri Mahendra Pd. Yadav S/o Late Keso Gop 3. Sri Dinanath Yadav S/o Late Amrit Prasad Yadav 4. Rohit Yadav S/o Sri Chotelal Yadav
				786	Private	Tand	0.010	40.469	Chatradhan Yadav Urf Karu Yadav S/o Sri Kamal Mahto 1. Devial Yadav S/o Late Raghu yadav 2. Sri Mahendra Pd. Yadav S/o Late Keso Gop 3. Sri Dinanath Yadav S/o Late Amrit Prasad Yadav 4. Rohit Yadav S/o Sri Chotelal Yadav

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				787	Private	Tand	0.020	80 939	Govind Ram S/o Late Phulchand Ram and Chotu Ram and Niranjani Ram and Ganesh Ram S/o Late Dahan Ram and Pintu Kumar and Karu Kumar S/o Late Presm Kumar 1. Sri Devlal Yadav S/o Late Raghu Yadav 2. Sri Mahendra Prasad Yadav S/o Late Kesho Gop 3. Sri Dinanath Yadav S/o Late Amrit Prasad Yadav 4. Sri Rohit Yadav S/o Sri Chotelal Prasad
				788	Private	Tand	0.010	40.469	1. Sri Devdyaal Yadav S/o Late Raghu Yadav 2. Sri Mandera Pd. Yadav S/o Late Kesho Gop Yadav S/o Late Amrit Prasad Yadav 4. Sri Rohit Yadav S/o Sri Chotelal Yadav
				789	Private	Tand	0.010	40.469	Dhanu Yadav S/o Late Raghu Yadav 1. Sri Devdyaal Yadav S/o Late Raghu Yadav 2. Sri Mahendra Pd. Yadav S/o Late Kesho Gop 3. Sri Dinanath Yadav S/o Late Amrit Pd. Yadav 4. Sri Rohit Yadav S/o Sri Chotelal Yadav
				790	Private	Tand	0.010	40.469	1. Sri Devdyaal Yadav S/o Late Raghu Yadav 2. Sri Mandera Pd. Yadav S/o Late Kesho Gop Yadav S/o Late Amrit Prasad Yadav 4. Sri Rohit Yadav S/o Sri Chotelal Yadav
				791	Private	Tand	0.010	40.469	Rewal Mahto S/o Late Akal Mahto 1. Sri Devlal Yadav S/o Late Raghu Yadav 2. Sri Mahendra Pd. Yadav S/o Late Kesho Gop 3. Sri Dinanath Yadav S/o Late Amrit Prasad Yadav 4. Sri Rohit Yadav S/o Sri Chotelal Yadav
				792	Private	Tand	0.010	40.469	Firangi Ram S/o Late Mangar Ram and Shashi Ram S/o Late Rajendra Ram and Vijendra Ram and Bangali Ram and Shyam Ram S/o Late Gandori Ram equal and Ashish Ram and Vikash Ram S/o Late Sikandar Ram 1. Sri Devlal Yadav S/o Late Raghu Yadav 2. Sri Mahendra Pd. Yadav S/o Late Kesho Gop 3. Sri Dinanath Yadav S/o Late Amrit Pd. Yadav 4. Sri Rohit Yadav S/o Sri Chotelal Pd.
				793	Private	Tand	0.010	40.469	Chaitradhan Yadav Urf Karu Yadav S/o Sri Kamal Mahto 1. Devlal Yadav S/o Late Raghu Yadav 2. Sri Mahendra Pd. Yadav S/o Late Kesho Gop 3. Sri Dinanath Yadav S/o Late Amrit Prasad Yadav 4. Rohit Yadav S/o Sri Chotelal Yadav
				794	Private	Tand	0.020	80 939	Budhan Mahto and Kailash Gop and Jagdish Pd. S/o Late Punit Mahto 1. Sri Devlal Yadav Late Raghu Yadav 2. Sri Mahendra Pd. Yadav S/o Late Kesho Gop 3. Sri Dinanath Yadav S/o Late Amrit Pd. Yadav 4. Sri Rohit Yadav S/o Sri Chotelal Pd.
				795	Private	Tand	0.020	80 939	Kamal Mahato S/o Late Jitan Mahto one part and Rupan Mahato and Kalpu Mahto S/o Late Lalit Mahato and Kusun Mahato and Janki Mahato and Choli Mahato and Bodhi Mahato S/o Late Nunu Mahato 1. Sri Devlal Yadav S/o Late Raghu Yadav 2. Sri Mahendra Pd. Yadav S/o Late Kesho Gop 3. Sri Dinanath Yadav S/o Late Amrit Pd. Yadav 4. Sri Rohit Yadav S/o Sri Chotelal Mahato
				796	Private	Tand	0.020	80 939	1. Sri Devdyaal Yadav S/o Late Raghu Yadav 2. Sri Mandera Pd. Yadav S/o Late Kesho Gop Yadav S/o Late Amrit Prasad Yadav 4. Sri Rohit Yadav S/o Sri Chotelal Yadav
				800	Private	Tand	0.020	80 939	Badri Mahato S/o Late Chamar Mahato
				801	Private	Tand	0.100	404.694	Shiv Kumar Ram and Surendra Kumar Verma S/o Late Saryu Ram and Mo Kapurwa S/o Late Baldev Ram
				802	Private	Tand	0.010	40.469	Kishun Mahato and Bodhi Mahato and Janki Mahato and Choli Mahato S/o Late Nunu Mahato
				803	Private	Tand	0.010	40.469	Gopal Yadav and Mahesh Yadav S/o Late Tilak Mahato and Mo. Koushlya W/o Late Mitra Pd. Yadav
				804	Private	Tand	0.010	40.469	Gopal Yadav and Mahesh Yadav S/o Late Tilak Mahato and Mo. Koushlya W/o Late Mitra Pd. Yadav
				805/1	Private	Tand	0.010	40.469	Mo. Koushlay W/o Late Mitra Pd. Yadav
				805/2	Private	Tand	0.010	40.469	Gopal Yadav and Mahesh Yadav S/o Late Tilak Mahato
				806/1	Private	Tand	0.030	121.408	Mo. Koushlay W/o Late Mitra Pd. Yadav
				806/2	Private	Tand	0.030	121.408	Gopal Yadav and Mahesh Yadav S/o Late Tilak Mahato
				807/1	Private	Tand	0.020	80 939	Mo. Koushlay W/o Late Mitra Pd. Yadav
				807/2	Private	Tand	0.020	80 939	Gopal Yadav and Mahesh Yadav S/o Late Tilak Mahato
				808	Private	Tand	0.020	80 939	Jagdish Prasad S/o Late Bhola Yadav
				809	Private	Tand	0.010	40.469	Vijay Yadav and Rajdev Yadav S/o Late Sugan Yadav equal part
				811	Private	Tand	0.010	40.469	Unknown
				812	Private	Tand	0.010	40.469	Parwati Devi W/o Jagamath Ram
				813	Private	Tand	0.010	40.469	Unknown
				814	Private	Tand	0.020	80 939	Parwati Devi W/o Jagamath Ram
				818	Private	Tand	0.030	121.408	Smt Sakho Devi W/o Gayajit Singh
				819	Private	Tand	0.030	121.408	Narayan Singh S/o Late Makardhwaj Singh
				821	Private	Tand	0.030	121.408	Mo. Sita Devi W/o Late Jagdish Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				822	Private	Tand	0.030	121 408	Mo. Sita Devi W/o Late Jagdish Singh
				824	Private	Tand	0.060	242 817	Rajeshwar Singh S/o Gyajit Singh and Dashrath Singh and Mahendra Singh S/o Late Goberdhan Singh
				825	Private	Tand	0.010	40 469	Narayan Singh S/o Late Makardhwaj Singh
				839	Private	Tand	0.020	80 939	Vinay Kumar Singh S/o Late Jagdish Singh
				841	Private	Tand	0.010	40 469	Mo. Rani W/o Late Dashrath Singh
				843	Private	Dhan	0.030	121.408	Mo. Rani W/o Late Dashrath Singh
				869	Private	Dhan	0.020	80 939	Mo. Rani W/o Late Dashrath Singh
				870	Private	Dhan	0.090	364 225	Tulsi Singh and Rajeshwar Singh and Pradeep Singh and Sunil Singh and Triveni Singh S/o Late Raghunand Singh
				871	Private	Dhan	0.010	40 469	Kunti Devi S/o Kisun Yadav
				872	Private	Dhan	0.040	161.878	Kamal Yadav S/o Late Jitan yadav and Tulsi yadav and Prabhu Yadav and Late Dharm Mahat and Mo. Mainwa W/o Late Jugai Yadav
				873	Private	Dhan	0.010	40 469	Ramu Yadav S/o Late Kheman Mahato
				875	Private	Dhan	0.130	526 103	Shankar yadav S/o Late Teko Mahato and Nandu Mahato S/o Late Kishun Mahato
				876	Private	Dhan	0.020	80 939	Utim Mahato S/o Late Nanhu Mahato
				877	Private	Dhan	0.030	121.408	Kamal Mahato S/o Late Jitan Mahato and Gopal Yadav and Mahesh Yadav S/o Late Tilak Mahato and Mo. Kaushiya W/o Late Mitra Pd Yadav
				1467	Private	Dhan	0.150	607.042	Kamal Yadav S/o Late Jitan yadav and Rupan Yadav and Kalpu Yadav S/o Late Lalit Yadav equal and Mo. Mainwa and Tulsi yadav and Prabhu Yadav S/o Late Dharm Mahato
				884	Private	Dhan	0.020	80 939	Shiv Kumar Ram and Surendra Kumar Verma S/o Late Saryu Ram
				885/1	Private	Dhan	0.080	323 756	Gopal Yadav and Mahesh Yadav S/o Late Tilak Mahato and Mo. Koushiya W/o Late Mitra Pd Yadav
				885/2	Private	Dhan	0.080	323 756	Rupan yadav and Kalpu Yadav S/o Late Lalit Mahato
				952	Private	Dhan	0.110	445 164	Dhanu Yadav S/o Raghu Mahato
				956	Private	Dhan	0.010	40 469	Choli Yadav and Bodhi Yadav S/o Late Nunu Mahato
				953	Private	Dhan	0.010	40 469	Dhanu Yadav S/o Raghu Mahato
				1007/1	Private	Dhan	0.045	182 113	Kishun Yadav and Bodhi Mahato and Janki Mahato and Choli Mahato S/o Late Nunu Mahato
				1007/2	Private	Dhan	0.045	182 113	Mo. Koushlay W/o Late Mitra Pd Yadav
				1006/1	Private	Dhan	0.025	101 174	Kishun Yadav and Bodhi Mahato and Janki Mahato and Choli Mahato S/o Late Nunu Mahato
				1006/2	Private	Dhan	0.025	101 174	Mo. Koushlay W/o Late Mitra Pd Yadav
				1000/1	Private	Dhan	0.090	364 225	Sundri Devi S/o Sukhdev Pd. Yadav
				1000/2	Private	Dhan	0.010	40 469	Smt. Vina Devi S/o Manohar Singh
				1000/3	Private	Dhan	0.010	40 469	Ashok Ram S/o Basdev Ram
				1000/4	Private	Dhan	0.010	40 469	Mo. Sita Devi W/o Late Jagdish Singh
				999	Private	Dhan	0.030	121 408	Sundri Devi S/o Sukhdev Pd. Yadav
				1001	Private	Dhan	0.020	80 939	Sundri Devi S/o Sukhdev Pd. Yadav
				983	Private	Dhan	0.020	80 939	Sundri Devi S/o Sukhdev Pd. Yadav
				998	Private	Dhan	0.010	40 469	Sundri Devi S/o Sukhdev Pd. Yadav
				997	Private	Dhan	0.010	40 469	Unknown
				995	Private	Dhan	0.010	40 469	Rajeshwar Singh S/o Gyajit Singh
				994	Private	Dhan	0.010	40 469	Rajeshwar Singh S/o Gyajit Singh
				992	Private	Dhan	0.020	80 939	Mo. Rani W/o Late Dashrath Singh
				991	Private	Dhan	0.010	40 469	Mo. Rani W/o Late Dashrath Singh
				981	Private	Tand	0.060	242.817	Vahendra Singh S/o Sri Goberdhan Singh
				557	Private	Tand	0.020	80 939	Smt. Rukani Devi S/o Jagdish Yadav
				555	Private	Tand	0.010	40 469	Rajendra Yadav and Mohan Yadav and Dashrath Yadav S/o Late Bandhan Yadav and Mo. Saraswati W/o Late Saryu Yadav
				554	Private	Tand	0.010	40 469	Vahendra Pd. Yadav S/o Late Kesho Gop
				553	Private	Tand	0.020	80 939	Mo. Sita W/o Jagdish Singh Gopal Yadav and Mahesh Yadav S/o Late Tilak Mahato and Mo. Kaushiya S/o Late Mitra Pd Yadav and Dharam Mahato S/o Late Khoso Mahato
				552/1	Private	Tand	0.005	20 235	Sukhdev Ram and Suresh Ram and Raj Kishore Singh and Mahesh Kumar Singh S/o Late Umar Ram
				552/2	Private	Tand	0.005	20 235	Jagdish Prasad S/o Late Punit Prasad
				551	Private	Tand	0.020	80 939	Chandrikaram S/o Late Bajuram and Saryu Ram and Jodhiram S/o Late Mithuram and Surendra Ram and Anil Ram and Uday Ram S/o Late Sonu Ram and Devdhari Ram and Dhanishwar Ram and Prameshwar Ram and Kamieshwar Ram S/o Late Hiralai Ram etc
				550	Private	Tand	0.020	80 939	Budhar Mahato and Kailash Gop and Jagdish Pd. S/o Late Punit Mahato
				549	Private	Tand	0.020	80 939	Mo. Chanchal S/o Late Presm Ram one part and Nirajan Ram S/o Late Dahan Ram
				518	Private	Tand	0.010	40 469	Mo. Butni S/o Late Mangar Mahato

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				547	Private	Tand	0.010	40.469	Srimati Ramdulari Devi S/o Gondauri Ram
				546	Private	Tand	0.010	40.469	Ramdulari Devi S/o Ganauri Ram Mahendra Yadav S/o Late Bodhi Yadav and Mo. Dropati S/o Cholo Yadav and Raju Yadav S/o Late Shanu Yadav
				545	Private	Tand	0.010	40.469	Vijendra Ram and Bangali Ram and Shyam Ram S/o Late Gandauni Ram and Ashish Ram and Vikas Ram S/o Late Sikandar Ram and Shashi Ram S/o Late Rajendra Ram
				540	Private	Tand	0.010	40.469	Smt Rukani Devi S/o Jagdish Yadav
				537/1	Private	Tand	0.005	20.235	Tulsi Yadav S/o Late Dharm Mahato
				537/2	Private	Tand	0.025	101.174	Gopal Yadav and Mahesh Yadav S/o Late Tilak Mahato and Mo. Koushiya W/o Late Mitra Pd. Yadav and Mo. Mainwa W/o Late Jugai Yadav and Prabhu Yadav S/o Late Dharam Mahato
				537/3	Private	Tand	0.030	121.408	Kamal Mahato S/o Late Jitan Yadav and Rupan Yada and Kalpu Yadav and Late Lalit Mahato and Tilak Yadav and Lalidhari Yadav and Rameshwar Yadav and Budhan Yadav S/o Late Nando Mahato and Kishun Yadav and Janki Yadav and Chaiti Yadva and Bodhi Mahato.
				538	Private	Tand	0.360	1456.900	Ramsahay Singh
				539	Private	Tand	0.420	1699.717	Mo. Parwari W/o Bharat Ram and Chetial Singh and Tapeswan Singh and Gajadhar Ram S/o Late Shivcharan Ram
				1062/1	Private	Tand	0.040	161.878	Ramchandra Mahato S/o Late Chaman Mahato
				1062/2	Private	Tand	0.035	141.643	Chatradhari Yadav S/o Kamal Mahato .
				1062/3	Private	Tand	0.010	40.469	Ramchandra Mahato S/o Late Chaman Mahato
				1062/4	Private	Tand	0.185	748.685	Ramchandra Mahato S/o Late Chaman Mahato
				1062/5	Private	Tand	0.020	80.939	Gopal Yadav and Mahesh Yadav S/o Late Tilak Mahato one part equal Mo. Koushiya W/o Late Mitra Pd. Yadav
				1062/6	Private	Tand	0.070	283.286	Gopal Yadav and Mahesh Yadav S/o Late Tilak Mahato one part equal Mo. Koushiya W/o Late Mitra Pd. Yadav .
				1063/1	Private	Tand	0.040	161.878	Mo. Kaushlya W/o Mitra Pd. Yadav and Gopal Yadav and Mahesh Yadav S/o Late Tilak Yadav
				1063/2	Private	Tand	0.030	121.408	Smt Saho Devi W/o Basdev Ram
				1064	Private	Tand	0.150	607.042	Sri Ram S/o Basdev Ram
				1072	Private	Tand	0.080	323.756	Ramu Yadav S/o Late Kheman Mahato
				1065	Private	Tand	0.040	161.878	Smt Saho Devi W/o Basdev Ram
				1071	Private	Tand	0.010	40.469	Unknown
				1073/1	Private	Tand	0.060	242.817	Jagdish Mahato S/o Bholi Mahato
				1073/2	Private	Tand	0.020	80.939	Mahavir Yadava S/o Late Bola Mahato
				1073/3	Private	Tand	0.020	80.939	Degan Yadav and Phulaki Yadav and Dular Yadav S/o Late Jhaman Mahato
				1073/4	Private	Tand	0.020	80.939	Degan Yadav and Phulaki Yadav and Dular Yadav S/o Late Jhaman Mahato
				1091/1	Private	Tand	0.025	101.174	Jagdish Mahato S/o Bholi Mahato
				1091/2	Private	Tand	0.055	222.582	Gopal Yadav and Mahesh Yadav S/o Late Tilak Mahato and Mo. Koushiya W/o Late Mitra Pd. Yadav and Mo. Mainwa W/o Late Yugai Yadav and Tulsi and Prabhu Yadav S/o late Dharam Mahato
				1091/3	Private	Tand	0.020	80.939	Degan Yadav and Phulaki Yadav and Dular Yadav S/o Late Jhaman Mahato
				1092	Private	Tand	0.040	161.878	Degan Yadav and Phulaki Yadav and Dular Yadav S/o Late Jhaman Mahato
				1093	Private	Tand	0.050	202.347	Degan Yadav and Phulaki Yadav and Dular Yadav S/o Late Jhaman Mahato
				1094/1	Private	Tand	0.010	40.469	Kameshwar Ram S/o Late Hiralal Ram
				1094/2	Private	Tand	0.030	121.408	Sitaram Singh S/o Chpan Ram
				1095/1	Private	Tand	0.025	101.174	Shiv Ram S/o Late Ramdhan Ram
				1095/2	Private	Tand	0.025	101.174	Brahmdev Ram and Prem and Mahendra Ram S/o Late Gobardhan Ram
				1096	Private	Tand	0.090	364.225	Kishun Mahato and Janki Mahato and Choli Mahato and Bodhi Mahato S/o Late Nunu Mahato Smt Saho Devi S/o Basdev Ram
				1185/1	Private	Tand	0.040	161.878	Mo. Mainwa W/o Late Yugai Yadav and Tulsi Yadav and Prabhu Yadav S/o Late Dharam Mahato
				1185/2	Private	Tand	0.020	80.939	Kamal Yadav S/o Late Jitan Mahato
				1185/3	Private	Tand	0.010	40.469	Rupan yadav and Kalpu Yadav S/o Late Lalit Mahato
				1185/4	Private	Tand	0.010	40.469	Kishun Yadav and Bodhi Mahato and Janki Mahato and Choli Mahato S/o Late Nunu Mahato
				1186/1	Private	Dhan	0.135	546.338	Rajeshwar Singh S/o Gyajeet Ram
				1186/2	Private	Dhan	0.045	182.113	Mahendra Singh S/o Sri Goberdhan Singh
				1187/1	Private	Hkh.M	0.010	40.469	Mo. Bhagiya S/o Tiko Yadav
				1187/2	Private	Hkh.M	0.010	40.469	Mo Bhikhani S/o Late Bhikhani Yadav
				1194/1	Private	Dhan	0.040	161.878	Mo Bhagiya W/o Late Tiko Yadav
				1194/2	Private	Dhan	0.040	161.878	Mo Bhikhani S/o Late Bhikhani Yadav
				1195	Private	vkj	0.010	40.469	Mo Butani S/o Late Mangar Saw
				1196	Private	Dhan	0.250	1011.736	Mo Butani S/o Late Mangar Saw

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				1197	Private	Dhan	0.010	40.469	Unknown
				1236/1	Private	Dhan	0.050	202.347	Mo. Bhagiya S/o Tiko Yadav
				1236/2	Private	Dhan	0.050	202.347	Mo Bhikhani S/o Late Bhikhari Yadav
				1235/1	Private	Dhan	0.010	40.469	Mo. Bhagiya S/o Tiko Yadav
				1235/2	Private	Dhan	0.010	40.469	Mo Bhikhani S/o Late Bhikhari Yadav
				1237/1	Private	Dhan	0.125	505.868	Mo. Bhagiya S/o Tiko Yadav
				1237/2	Private	Dhan	0.125	505.868	Mo Bhikhani S/o Late Bhikhari Yadav
				1238/1	Private	Dhan	0.050	202.347	Karnal Yadav Late Jitan Yadav
				1238/2	Private	Dhan	0.050	202.347	Gopal Yadav and Mahesh Yadav
				1240	Private	Dhan	0.030	121.408	Utim Mahato S/o Late Nankhu Mahato
				1241	Private	Dhan	0.020	80.939	Chandrika Ram S/o Late Baiju Ram
				1243	Private	Dhan	0.020	80.939	Nageshwari Devi W/o Utim Mahto
				1244/1	Private	Dhan	0.035	141.643	Kamal Yadav S/o Late Jitan Mahato
				1244/2	Private	Dhan	0.035	141.643	Mo. Mainwa W/o Late Yugal Yadav and Tulsi Yadav and Prabhu Yadav S/o Late Dharam Mahato
				1245/1	Private	Dhan	0.100	404.694	Utim Mahato S/o Late Nankhu Mahato
				1245/2	Private	Dhan	0.100	404.694	Subha Devi W/o Naresh Prasad Yadav one part equal part and Sangita Devi S/o Shankar Pd. Yadav
				1249	Private	Dhan	0.090	364.225	Nago Ram and Basdev Ram S/o Late Chotiram and Sukhdev Ram and Suresh Ram and Rajkishor Ram and Mahesh Kr. Singh S/o Late Ubhar Ram
				1247	Private	Tand	0.010	40.469	Manoj Singh and Ajay Singh S/o Late Dwarkan Singh
				1248	Private	Tand	0.010	40.469	Sitaram Singh S/o Pachan Ram
				1250	Private	Tand	0.020	80.939	Ramchandra Mahato S/o Late Chaman Mahato
				1251	Private	Tand	0.030	121.408	Gopal Yadav and Mahesh Yadav S/o Late Tilak Yadav
				1252	Private	Tand	0.020	80.939	Nago Ram and Basdev Ram S/o Late Chotiram and Sukhdev Ram and Suresh Ram and Rajkishor Ram and Mahesh Kr. Singh S/o Late Ubhar Ram
				1253	Private	Tand	0.030	121.408	Budhan Mahato etc S/o Late Punit Mahato
				1254	Private	Tand	0.030	121.408	Chotu Ram and Ganesh Ram S/o Late Dahan Ram
				1255	Private	Tand	0.020	80.939	Sri Sujit Kumar Yadav S/o Sri Khirodhar Yadav
				1256	Private	Tand	0.020	80.939	Sri Sujit Kumar Yadav S/o Sri Khirodhar Yadav
				1257	Private	Tand	0.020	80.939	Firangi Ram etc S/o Late Mangar Ram
				1329	Private	Tand	0.020	80.939	Mo. Keshan W/o Late Gobardhan
				1330/1	Private	Tand	0.025	101.174	Budhan Mahato and Kailash Gop and Jagdish Pd. S/o Punit Mahato Kamal Yadav S/o Late Jitan Mahato and Rupam Yadav S/o Late Lalit Mahato
				1330/2	Private	Tand	0.025	101.174	Smt Panipati W/o Sri Kashi Lal, Gopal Yadav and Mahesh Yadav S/o Late Tilak Yadav and Mo Kaushlya W/o Late Mitra Pd. Yadav
				1331/1	Private	Tand	0.020	80.939	Smt Panipati W/o Sri Kashi Lal
				1331/2	Private	Tand	0.020	80.939	Jagdish Mahato S/o Bhola Mahato
				1371	Private	Tand	0.010	40.469	Jagdish Mahato S/o Bhola Mahato
				1372	Private	Tand	0.020	80.939	Mo Maya W/o Late Baijnath Pd
				1373	Private	Tand	0.020	80.939	Shankar yadav S/o Late Teko Mahato and Nandu Mahto S/o Late Kishun Mahato
				1374	Private	Tand	0.010	40.469	Prameshwar Yadav S/o Nandu Yadav
				1375	Private	Tand	0.010	40.469	Mo. Maya W/o Late Baijnath Pd.
				1377/1	Private	Tand	0.030	121.408	Smt Sita Devi W/o Jagdish Prasad
				1377/2	Private	Tand	0.020	80.939	Mo. Maya W/o Late Baijnath Pd
				1378/1	Private	Tand	0.010	40.469	Mo. Maya W/o Late Baijnath Pd.
				1378/2	Private	Tand	0.010	40.469	Sukhdev Ram and Suresh Ram and Raj Kishore Singh and Mahesh Kumar Singh S/o Late Umar Ram
				1379/1	Private	Tand	0.010	40.469	Chandrika Ram S/o Late Baiju Ram
				1379/2	Private	Tand	0.010	40.469	Devdhar Ram S/o Late Baiju Ram
				1380	Private	Tand	0.020	80.939	Govind Ram S/o Late Phulchand Ram
				1381/1	Private	Tand	0.015	60.704	Brahmdev Ram and Prem and Mahendra Ram S/o Late Gobardhan Kari
				1381/2	Private	Tand	0.015	60.704	Chetnarai Singh and Tapeswan Singh and Gangadhar Ram S/o Late Shivcharan Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				1384	Private	Tand	0.020	80.939	Smt Mulo Devi S/o Shivcharan Singh
				1385/1	Private	Tand	0.005	20.235	Sri Prabhu Ram S/o Late Shiva Ram
				1385/2	Private	Tand	0.005	20.235	Dhirendra Kumar S/o Aditya Singh
				1385/3	Private	Tand	0.010	40.469	Sri Chandreshwar Pd Singh S/o Late Ram Kishore Singh
				1386	Private	Tand	0.020	80.939	Ramchandra Ram and Jugeshwar Ram and Ramsharan and Kuldeep Singh S/o Late Munshi Ram four equal part and Pradeep Singh and Awadh Singh and Karu Singh S/o Anagar Ram and Manoj Singh and Ajay Singh S/o Late Dimple Ram
				1387	Private	Tand	0.020	80.939	Nandu Mahato S/o Late Kishur Mahato Rangayai Raiyat, Kewaladhar Raiyat - S/o Maheshwari and Yadav S/o Sri Keshaw Yadav
				1388	Private	Tand	0.020	80.939	Sri Mahendra pd. Yadav S/o Sri Keshaw yadav
				1389	Private	Tand	0.020	80.939	Dhanu Yadav S/o Raghu Mahato
				1390	Private	Tand	0.020	80.939	Tilak Mahato S/o Late Thakur Mahato and Mahato Kumar Yadav and Pawan Kumar Yadav S/o Chandra Yadav and Mahato Yadav S/o Late Mahato Mahato and Raju Yadav S/o Gopi Yadav
				1391	Private	Tand	0.020	80.939	Vijay yadav S/o Sugan Mahato and Anand Mahato Yadav and Ashok Kumar Yadav S/o Mahesh Yadav and Rajdev Yadav S/o Sugan Mahato and Raju Yadav and Vinod Yadav and Jagdish Yadav S/o Late Kel Mahato
				1392	Private	Tand	0.020	80.939	Faguni Devi S/o Khedari Gop
				1394	Private	Tand	0.010	40.469	Chandrika Ram S/o Late Raju Ram and Ram Mahato and Dodi Ram S/o Late Maheshwari and Dhirendra Ram and Anil Ram and Gopi Ram S/o Late Chand Ram and Prameshwar Ram and Rameshwar Ram S/o Late Hiralal Ram
				1395	Private	Tand	0.010	40.469	Rajeshwar Yadav and Ravi Kishor Yadav and Sanjit Kumar Yadav S/o Late Shyam Yadav and Kujil Yadav and Chetan Yadav S/o Late Gokul Mahato
				1397/1	Private	Tand	0.005	20.235	Umar Ravidas S/o Late Madhan Ramar
				1397/2	Private	Tand	0.005	20.235	Mahesh Ravidas and Ramprasad Ravidas S/o Nageshwar Ravidas Baham Ravidas S/o Mahesh Ravidas
				1398	Private	Tand	0.010	40.469	Shashi Ram S/o Rajendra Ram and Vijendra Ram and Bangali Ram and Shyam Ram equal S/o Late Gaundari Ram and Ashish Ram and Vikash Ram S/o Late Sikandar Ram
				1401	Private	Dhan	0.050	202.347	Shashi Ram S/o Rajendra Ram and Vijendra Ram and Bangali Ram and Shyam Ram equal S/o Late Gaundari Ram and Ashish Ram and Vikash Ram S/o Late Sikandar Ram
						Total	7.010	28369.081	
			(2) Kadwa	14	Private	Dhan	0.230	930.797	Harihar Singh s/o Late Mahadev Singh & Manu Kr Ravani & Manjeet Kr Ravani S/o Late Tulasi Singh
				15	Private	Dhan	0.280	1133.144	Isar Mahato & Bhagy Mahato & Hiralal Mahato S/o Late Lodhar Mahato
						Total	0.510	2063.942	
	2 Padma	(1) Karmatanr	397	Private	Dhan	0.030	121.408	Mosmat Mula w/o Late Jagdish Mahato & Rajkumar	
			400	Private	Dhan	0.230	930.797	Mosmat Mula w/o Late Jagdish Mahato & Rajkumar	
			401	Private	Dhan	0.460	1861.594	Mosmat Mula w/o Late Jagdish Mahato & Rajkumar Pd. Mahato & Jitendra Kr. Mahato & Bhupendra Kr. Mahato S/o Late Jagdish Mahato	
			402	Private	Dhan	0.360	1456.900	Mosmat Mula w/o Late Jagdish Mahato & Rajkumar Pd. Mahato & Jitendra Kr. Mahato & Bhupendra Kr. Mahato S/o Late Jagdish Mahato	
			403	Private	Dhan	0.420	1699.717	Mosmat Mula w/o Late Jagdish Mahato & Rajkumar Pd. Mahato & Jitendra Kr. Mahato & Bhupendra Kr. Mahato S/o Late Jagdish Mahato	
			392	Private	Dhan	0.060	242.817	Mosmat Mula w/o Late Jagdish Mahato & Rajkumar Pd. Mahato & Jitendra Kr. Mahato & Bhupendra Kr. Mahato S/o Late Jagdish Mahato	
			393	Private	Dhan	0.060	242.817	Mosmat Mula w/o Late Jagdish Mahato	
			388	Private	Tand	0.060	242.817	Jitendra Singh & Arjun Singh etc Resident of Village - Sarauni, Dist- Hazaribagh	
						Total	1.680	6798.857	
			(2) Romi	40/1	Private	Tand	0.025	101.174	Gandauri Mahato and Pritam Mahato S/o Late Dhanan Mahato and Nem Chandra Mahato and Kailash Mahato S/o Late Hulesh Mahato
				40/2	Private	Tand	0.025	101.174	Hanhar Singh S/o Late Mahadev Singh & Mo Samudri S/o Late Tulasi Singh
				40/3	Private	Tand	0.025	101.174	Mahendra Singh S/o Sri Basudev Singh
				40/4	Private	Tand	0.010	40.469	Balram Prasad Mehta S/o Late Tukun Mahato
				40/5	Private	Tand	0.065	263.051	Rohan Mahato and Thakuraj Mahato and Jagdish Mahato S/o Late Budhan Mahato

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				42/1	Private	Tand	0.010	40 469	Harihar Singh S/o Late Mahadev Singh and Mo Samudri W/o Late Tulsi Singh
				42/2	Private	Tand	0.010	40 469	Manendra Singh S/o Late Basudev Singh
				42/3	Private	Tand	0.010	40 469	Mehendra Singh S/o Late Basudev Singh, Harihar Singh S/o Late Mahadev Singh and Mo Samudri S/o Late Tulsi Singh
				42/4	Private	Tand	0.020	80 939	Kedar Pd. Verma S/o Late Basdev Ram
				43/1	Private	Tand	0.040	161.878	Lagamath Singh Late Jagdish Singh
				43/2	Private	Tand	0.010	40 469	Virandar Mehta S/o Late Chetlal Mehta and Ramakhan Mahato and Kashi Mahato and Redheshyam Mahato S/o Late Reba Mahato
				43/3	Private	Tand	0.010	40 469	Meghial Mahato and Pokhraj Mahato and Tilak Mahato S/o Late Reba Mahato
				44/1	Private	Tand	0.010	40 469	Sasanti Narayan Mehta and Arun Mehta and Vijay Mehta S/o Late Prameshwar Mehta
				44/2	Private	Tand	0.010	40 469	Lajal Mehta S/o Late Madhu Mehta
				44/3	Private	Tand	0.020	80 939	Pmt Swell Devi S/o Jagdish Ram
				45	Private	Tand	0.040	161.878	Lajal Mehta S/o Madhu Mehta and Krishna Pd. Mehta and Ashok Prasad Mehta and Badari Mehta S/o Late Babu Mehta
				45/1	Private	Tand	0.013	50 507	Manvir Mahato S/o Late Nital Mehta
				46/2	Private	Tand	0.025	101 173	Pmt Sarswati Devi S/o Nanhak Mahato
				46/3	Private	Tand	0.013	50 507	Manhak Mahato S/o Late Nital Mahato
				47/1	Private	Tand	0.015	60 704	Prameshwar Mahato S/o Late Jhabar Mahato
				47/2	Private	Tand	0.015	60 704	Devraj Mahato S/o Late Lilo Mahato
				47/3	Private	Tand	0.040	161.878	Man Mahato S/o Late Giridhari Mahato
				47/4	Private	Tand	0.040	161.878	Yashkhor Mahato and Ganesh Mahato S/o Late Jagdish Mahato and Harinath Mahato S/o Late Bodhi Mahato
				47/5	Private	Tand	0.040	161.878	Manju Mahato S/o Late Rupchand Mahato and Ramshay Mahato S/o Late Khroddhar Mahato and Raju Kumar Mahato and Ashok Kumar Mahato S/o Late Kewal Mahato and Jitendra Kumar Mahato S/o Late Biju Mahato
				47/6	Private	Tand	0.015	60 704	Devraj Mahato S/o Late Kishun Mahato and Lukan Mahato S/o Late Bishu Mahato
				50	Private	Tand	0.075	303 527	Not down
				60	Private	Tand	0.040	161.878	Meghial Mahato S/o Late Tokai Mahato
				66	Private	Dhan	0.030	134 761	Madhral Mahato S/o Late Sukan Mahato
				78	Private	Dhan	0.010	40 469	Lajal Mahato S/o Late Madhu Mahato and Krishna Mahato and Ashok Pd. Mehta S/o Late Prameshwar Mahato and Bihari Mahato and Badari Mahato S/o Late Babu Mahato
				79	Private	Dhan	0.010	40 469	Manjmani S/o Late Reba Mahato and Lakhraj Mahato and Chotan Mahato and Dhanu Mahato S/o Late Prayag Mahato
				77	Private	Dhan	0.060	242 517	Not down
				80/1	Private	Dhan	0.033	134 761	Virandar Mehta S/o Late Chetlal Mehta and Ramakhan Mahato and Kashi Mahato and Redheshyam Mahato S/o Late Reba Mahato
				80/2	Private	Dhan	0.033	134 761	Amprasad Mahato and Badinarayan Mahato S/o Late Bandhan Mahato and Taleshwar Mahato and Lakshman Kr. Mahato and Dinesh Kumar S/o Late S/o Mahato
				80/3	Private	Dhan	0.033	134 761	Prameshwar Mahato and Saryu Mahato and Jado Mahato S/o Late Ramdyu Mahato and Omkishor Mahato S/o Late Chetlal Mahato Rohan Mahato and Manish Mahato S/o Late Chetlal Mahato equal Prageshwar Mahato S/o Late Shibal Mahato and Lajla Mahato S/o Late Charan Mahato and Bodhraj Mahato and Ramchandra Mahato and Umakand Mahato S/o Late Jhaman Mahato
				81/1	Private	Dhan	0.033	134 761	Virandar Mehta S/o Late Chetlal Mehta and Ramakhan Mahato and Kashi Mahato and Redheshyam Mahato S/o Late Reba Mahato
				81/2	Private	Dhan	0.033	134 761	Amprasad Mahato and Badinarayan Mahato S/o Late Bandhan Mahato and Taleshwar Mahato and Lakshman Kr. Mahato and Dinesh Kumar S/o Late S/o Mahato
				81/3	Private	Dhan	0.033	134 761	Prameshwar Mahato and Saryu Mahato and Jado Mahato S/o Late Ramdyu Mahato and Omkishor Mahato S/o Late Chetlal Mahato Rohan Mahato and Manish Mahato S/o Late Chetlal Mahato equal Prageshwar Mahato S/o Late Shibal Mahato and Lajla Mahato S/o Late Charan Mahato and Bodhraj Mahato and Ramchandra Mahato and Umakand Mahato S/o Late Jhaman Mahato
				83/1	Private	Tand	0.025	101 173	Yashkhor Mahato S/o Late Bangali Mahato and Chetlal Mahato and Basudev Mahato S/o Late Lajal Mehta
				83/2	Private	Tand	0.025	101 173	Manu Mahato and Ram Saray Mahato S/o Late Yashkhor Mahato and Chetlal Mahato and Basudev Mahato S/o Late Lajal Mehta
				84/1	Private	Tand	0.010	40 469	Lajal Mahato S/o Late Kishun Mahato
				84/2	Private	Tand	0.010	40 469	Man Mahato S/o Late Dulo Mahato

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				891	Private	Tand	0.020	80 939 Bhuneshwar Mahato and Kishori Mahato and Kailo Mahato S/o Late Tulsi Mahato
				690/1	Private	Tand	0.050	202.347 Sujit Kumar Rana Sabyasit Rana S/o Bansu Prasad Rana
				690/2	Private	Tand	0.235	951 032 Akhileshwar Rana S/o Late Sudan Mistri
				690/3	Private	Tand	0.035	141.643 Surya Narayan Mahtha S/o Late Dharm Mahato
				689/1	Private	Tand	0.020	80 939 Nirandar Mehta S/o Late Chetlal Mehta and Ramlakshmi Mahato and Kashi Mahato and Rameshnyam Mahato S/o Late Peman Mahato
				689/2	Private	Tand	0.040	161 878 Mohan Singh S/o Late Prayag Singh
				688/1	Private	Tand	0.030	121.408 Manoj Kumar Rana S/o Late Nageshwar Rana
				688/2	Private	Tand	0.030	121.408 Mineshwar Rana S/o Late Sudan Rana
				686	Private	Tand	0.100	404 694 Akhileshwar Rana S/o Late Sudan Mistri
				685	Private	Tand	0.060	242 817 Akhileshwar Rana S/o Late Sudan Mistri
				684/1	Private	Tand	0.015	60.704 Akhileshwar Rana S/o Late Sudan Mistri
				684/2	Private	Tand	0.035	141.643 Surya Narayan Mahtha S/o Late Dharm Mahato
				683	Private	Tand	0.060	242 817 Surya Narayan Mahtha S/o Late Dharm Mahato
				682	Private	Tand	0.020	80 939 Surya Narayan Mahtha S/o Late Dharm Mahato
				681/1	Private	Tand	0.045	182 113 Unknown
				681/2	Private	Tand	0.023	91.056 Sarju Rana S/o Late Lilo Mistri
				681/3	Private	Tand	0.023	91.056 Nuni Devi S/o Dina Rana
				680/1	Private	Tand	0.045	182 113 Unknown
				680/2	Private	Tand	0.023	91.056 Nuni Devi S/o Dina Rana
				680/3	Private	Tand	0.023	91.056 Sarju Rana S/o Late Lilo Mistri
				679	Private	Tand	0.060	242 817 Sarju Rana S/o Late Lilo Mistri
				678	Private	Tand	0.020	80 939 Rajendra Mehta and Prabhu Mehata S/o Late Chikauri Mahato and Tarun Dev S/o Dwarka Mahato
				677/1	Private	Tand	0.025	101.174 Ishwar Mahato S/o Late Kishun Mahato
				677/2	Private	Tand	0.025	101.174 Prem Mahato S/o Late Kishun Mahato
				676/1	Private	Tand	0.023	94.699 Bhuneshwar Pd. Mehata and Hemraj Pd. Mehata and Hulas Pd. Mehta S/o Late Jabar Mehta
				676/2	Private	Tand	0.023	94.294 Bihari Mahato S/o Late Giridhan Mahato
				676/3	Private	Tand	0.023	94.294 Tarun Devi W/o Dwarka Mahato
				675	Private	Tand	0.030	121.408 Hulai Pandey Late Bhugal Pandey Brignunath Sharma and Brahmdev Sharma S/o Late Omkashori Sharma and Santosh Sharin S/o Late Teknarayan Sharma and Mo Radhika Late Khrodhar Sharma and Rameshwar Sharma
				1363/1	Private	Tand	0.030	121.408 Jalail Mahat S/o Late Madhu Mahato
				1363/2	Private	Tand	0.030	121.408 Krishna Pd Mahata and Ashok Pd. Mehta S/o Late Ghanshaym Mahatoba Bihari Mahatoba S/o Late Babu Mahato
				558	Private	Tand	0.020	80 939 Sukhdev Sing S/o Late Jagdish Singh
				557	Private	Tand	0.020	80 939 Radhe Mahato Late Lodhar Mahat Vokali Mahat and Gunda Mahato and Chotee Mahato S/o Late Bhuneshwar Mahato
				556/1	Private	Tand	0.005	20 235 Mo. Bindwa W/o Late Guja Mahato and Kaila Mahato and Nagesh Mahato and Ritan Mahato and Piru Mahato S/o Late Jhabar Mahato
				556/2	Private	Tand	0.005	20 235 Prameshwar Mahato S/o Late Darwari Mahato
				550/1	Private	Tand	0.025	101.174 Smt Dhaneshwar Devi S/o Prameshwar Mahat
				550/2	Private	Tand	0.025	101.174 Ramkumar Mehta S/o Bhekhilal Mehta
				549	Private	Tand	0.010	40.469 Mahavir Mahato S/o Late Nirp Mahato
				548	Private	Tand	0.010	40.469 Sitaram Mehta and Prabhu Mehta and Nirandar Mehat S/o Late Chetlal Mahato
				540/1	Private	Tand	0.003	10 117 Kashi Mahato S/o Late Peman Mahato
				540/2	Private	Tand	0.008	30.352 Rohan Mahato and Mahesh Mahato S/o Late Chetlal Mahato
				540/3	Private	Tand	0.010	40.469 Nageshwar Mahat S/o Late Shibal Mahato
				541	Private	Tand	0.020	80 939 Taleshwar Mahato and Laxman Kr Mahato and Dinesh Kumar S/o Late Vulo Mahato
				542	Private	Tand	0.020	80 939 Jainarayan Saw Late Managar Saw
				546	Private	Tand	0.010	40.469 Ramprasad Vahato and Badhnarayan Mahato S/o Late Bandhan Mahato and Taleshwar Mahato and Lakshman Kr. Mahato and Dinesh Kumar S/o Late Vulo Mahato
				545	Private	Tand	0.040	161 878 Taleshwar Mahato and Laxman Kr Mahato and Dinesh Kumar S/o Late Vulo Mahato
				544	Private	Tand	0.010	40.469 Nageshwar Saw S/o Late Kangan Saw and Pintu Kumar etc S/o Late Indrajit Saw
				103	Private	Tand	0.010	40 469 Unknown
				100	Private	Tand	0.010	40 469 Mo. Jamani S/o Late Rebo Mahato and Lakhra Mahato and Chotan Mahato and Dhanu Mahato S/o Late Prayag Mahato
				101	Private	Tand	0.010	40 469 Mo. Jamani S/o Late Rebo Mahato and Lakhra Mahato and Chotan Mahato and Dhanu Mahato S/o Late Prayag Mahato
				1368/1	Private	Tand	0.020	80 939 Bhekhilal Mahato S/o Late Tokal Mahato

		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		1009/2	Private	Tand	0.020	80.939	Umesh Kumar Mahato and Vinod Kumar Mahato S/o Raghu Mahato and Surendra Mahato and Gayajit Mehta and Nirandar Mahata S/o Late Hemlal Mahato and Basdev Mahato S/o late Janki Mahato
		99	Private	Tand	0.040	161.878	Mo Jamni W/o Late Reba Mahato and Lekhray Mahato and Choten Mahato and Dhanu Mahato S/o Late Prayag Mahato
		98/1	Private	Dhan	0.005	20.235	Bheklhal Mahato S/o Late Tokal Mahato
		98/2	Private	Dhan	0.005	20.235	Umesh Kumar Mahato and Vinod Kumar Mahato S/o Raghu Mahato and Surendra Mahato and Gayajit Mehta and Nirandar Mahata S/o Late Hemlal Mahato and Basdev Mahato S/o late Janki Mahato
		93/1	Private	Dhan	0.110	445.164	Bheklhal Mahato S/o Late Tokal Mahato
		93/2	Private	Dhan	0.110	445.164	Umesh Kumar Mahato and Vinod Kumar Mahato S/o Raghu Mahato and Surendra Mahato and Gayajit Mehta and Nirandar Mahata S/o Late Hemlal Mahato and Basdev Mahato S/o late Janki Mahato
		94/1	Private	Dhan	0.055	222.582	Ishwar Mahato and Suresh Mahato S/o Late Prayag Mahato
		94/2	Private	Dhan	0.055	222.582	Bejnath Prasad Mehta and Ramnath Mahato S/o Late Kashi Mahato and Kailashpati Mehta S/o Late Hanhar Mahato
		95/1	Private	Dhan	0.015	60.704	Ishwar Mahato and Suresh Mahato S/o Late Prayag Mahato
		95/2	Private	Dhan	0.015	60.704	Bejnath Prasad Mehta and Ramnath Mahato S/o Late Kashi Mahato and Kailashpati Mehta S/o Late Hanhar Mahato
		674/1	Private	Tand	0.050	202.347	Vijay Mahato and Anand Mohan S/o Late Nageshwar Mahato
		674/2	Private	Tand	0.030	121.408	Devdhar Mahato S/o Late Mahadev Mahato
				Total	3.120	12626.487	
	(3) Surjapura	2/1	Private	Dhan	0.060	242.817	Sasmit Narayan Mahtha S/o Late Jagdish Mahato
		2/2	Private	Dhan	0.060	242.817	Radheshyam Mehta S/o Late Rameshwar Mahato
		316/1	Private	Dhan	0.037	148.118	Ragu Mahato and Sarju Mahato and Bhuneshwar Mahato S/o Late Nirp Mahato
		316/2	Private	Dhan	0.037	148.118	Lalo Mahato S/o Gendo Mahato and Meghan Mahato S/o Indo Mahato
		316/3	Private	Dhan	0.037	148.928	Prayag Mahato S/o Late Rupam Mahato
		3	Private	Dhan	0.050	202.347	Mahendra Singhato S/o Late Basdev Ram and Hanhar Singh S/o Late Mahadev Ram and Mo Dulari S/o Late Tulsi Singh and Mohan Singh S/o Late Prayag Ram
		4/1	Private	Dhan	0.015	60.704	Suraj Naraiyan Mahth S/o Dham Mahato
		4/2	Private	Dhan	0.005	20.235	Khemlal Mahato and Basudev Mahato S/o Anant Mahato and Bangali Mahato and Gajadhar Mahato and Sitaram Mahato S/o Late Sahdev Mahato
		5/1	Private	Dhan	0.010	40.469	Girdhar Mahtha and Tikeshwar Mahtha and Surjanarayan Mahath S/o Late Dham Mahato
		5/2	Private	Dhan	0.010	40.469	Moti Mahato S/o Gankhi Mahato
		6/3	Private	Dhan	0.010	40.469	Kauleshwar Mehta and Parmeshwar Mahata and Govind Mehta and Rajendra Mehta S/o Late Wajir Mehta
		6/4	Private	Dhan	0.010	40.469	Binod Kumar Mehta S/o Late Dihal Mahato
		7/1	Private	Dhan	0.023	91.056	Bangali Mehta and Gajadhar Mehta and Sitaram Mehta S/o Sahdev Mahato
		7/2	Private	Dhan	0.018	70.822	Khemlal Mahato aS/o Anant Mahato and Bangali Mahato and Gajadhar Mahato and Sitaram Mahato S/o Late Sahdev Mahato and Basdev Mahato S/o Anath Mahato
		9/1	Private	Dhan	0.020	80.939	Arjun Prasad Mahato and Shivshankar Prasad Mahato S/o Mahavr Mahato
		9/2	Private	Dhan	0.020	80.939	Shashibhushan Singh S/o Late Lota Singh
		9/3	Private	Dhan	0.020	80.939	Dashrath Singh and Suresh Singh and Rambriksh Singh S/o Manger Singh
		9/4	Private	Dhan	0.020	80.939	Vishwanath Singh S/o Bhgan Singh
		9/5	Private	Dhan	0.030	121.408	Vishwanath Singh S/o Bhgan Singh
		9/6	Private	Dhan	0.030	121.408	Dashrath Singh and Suresh Singh and Rambriksh Singh S/o Manger Singh
		9/7	Private	Dhan	0.030	121.408	Shashibhushan Singh S/o Late Lota Singh and Kuku Singh S/o Late Shyam Mohan Singh and Sonu Singh S/o Madan Mohan Singh
		9/8	Private	Dhan	0.030	121.408	Radho Devi S/o Moti Mahato
		10/1	Private	Dhan	0.030	121.408	Meghan Mahato S/o Late Guda Mahato
		10/2	Private	Dhan	0.020	80.939	Mahru Gop and Sukan Gop S/o Late Nirap Gop equal and Manoj Yadav S/o Nageshwar Yadav and Kedar Gop S/o Honil Gop
		11	Private	Dhan	0.010	40.469	Mahru Gop and Sukan Gop S/o Late Nirap Gop equal and Manoj Yadav S/o Nagashwar Yadav and Kedar Gop S/o Honil Gop
		53/1	Private	Dhan	0.035	141.643	Umesh Mahato and Rajkumar Mahato S/o Kujit Mahato equal and Bhukhar Mahato S/o Nando Mahato
		53/2	Private	Dhan	0.035	141.643	Jagdish Mahato S/o Hase Mahato
		54/1	Private	Dhan	0.040	161.878	Magho Mahato S/o Tiku Mahato

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				54/2	Private	Dhan	0.025	101.174	Sukan Mahato S/o Late Mangar Mahato
				54/3	Private	Dhan	0.005	20.235	Kishun Mahato S/o Late Lalo Mahato
				55	Private	Dhan	0.010	40.469	Unknown
				56/1	Private	Dhan	0.050	202.347	Pragya Mahato and Ritan Mahato and Roshan Mahato and Loknath Mahato and Jailal Mahato and Jageshwar Mahato and Jitendra Mahato and Suresh Mahato S/o Late Rupam Mahato equal part
				56/2	Private	Dhan	0.020	80.939	Kedar Mahato and Vijay Mahato S/o Nageshwar Mahato equal and Arjun Mahato and Naraiyan Mahato and Shankar Mahato and Prakash Mahato S/o Lalo Mahato
				57/1	Private	Dhan	0.030	121.408	Sarju Mahato S/o Late Nirap Mahato
				57/2	Private	Dhan	0.030	121.408	Raghu Mahato Late Nirp Mahato
				57/3	Private	Dhan	0.030	121.408	Bhuneswar Mahato S/o Late Nirap Mahato
				88	Private	Dhan	0.010	40.469	Bado Mahato S/o Bulaki Mahato
				90	Private	Dhan	0.020	80.939	Magho Badhai etc
				91/1	Private	Dhan	0.015	60.704	Girdhari Mahtha and Tikeshwar Mahtha and Surjanarayan Mahath S/o Late Dharm Mahato
				91/2	Private	Dhan	0.005	20.235	Ashok Rana S/o Guda Badai
				92/1	Private	Dhan	0.010	40.469	Girdhari Mahtha and Tikeshwar Mahtha and Surjanarayan Mahath S/o Late Dharm Mahato
				92/2	Private	Dhan	0.010	40.469	Harihar Rana S/o Late Hiro Rana
				93	Private	Dhan	0.020	80.939	Girdhari Mahtha and Tikeshwar Mahtha and Surjanarayan Mahath S/o Late Dharm Mahato
				94/1	Private	Dhan	0.010	40.469	Chotu Mistri S/o Late Hiro Mistri
				94/2	Private	Dhan	0.010	40.469	Chandar Mistri S/o Late Badhan Mistri and Harihar Mistri S/o Late Hiro Mistri
				95	Private	Dhan	0.030	121.408	Ashok Ram and Kashi Ram and Prayag Ram S/o Late Ishwar Ram and Fate Ram and Mahavir Ram S/o Late Bhanu Ram
				96	Private	Dhan	0.030	121.408	Dularchand Ram S/o Late Damari Ram and Bhate Ram S/o Bhatu Ram etc Saryu Ram and Kailash Ram and Kanu Ram and Chotu Ram
				98	Private	Dhan	0.020	80.939	Dularchand Ram S/o Late Damri Ram
				99	Private	Dhan	0.020	80.939	Ragho Devi W/o Moti Mahato
				1192	Private	Dhan	0.040	161.878	Banshidhar Kumar S/o Late Jado Ram
				1193	Private	Dhan	0.020	80.939	Banshidhar Kumar S/o Late Jado Ram
				1194	Private	Dhan	0.010	40.469	Jitan Ram S/o Nanhak Ram
				1195	Private	Dhan	0.020	80.939	Ratan Singh and Raju Kumar Singh and Birju Kumar Singh S/o Late Churaman Ram
				1196	Private	Dhan	0.060	242.817	Santosh Kumar S/o Late Amrit Singh
				1200/1	Private	Dhan	0.005	20.235	Smt Usha Devi S/o Kishore Singh
				1200/2	Private	Dhan	0.005	20.235	Santosh Kumar S/o Late Amrit Singh
				1201/1	Private	Dhan	0.005	20.235	Santosh Kumar S/o Late Amrit Singh
				1201/2	Private	Dhan	0.015	60.704	Bhushan Singh S/o Late Lato Singh
				1201/3	Private	Dhan	0.010	40.469	Basdev Saw S/o Late Bhukhan Saw
				1202/1	Private	Dhan	0.005	20.235	Krishna Prasad S/o Late Dwarika Saw
				1202/2	Private	Dhan	0.010	40.469	Lakhan Saw and Laksmi Saw S/o Late Dwarika Saw
				1202/3	Private	Dhan	0.005	20.235	Trilokinath Sahu and Bhagwan prasad S/o Late Janki Saw and Mo Subra S/o Late Rambriksh Prasad
				1203	Private	Dhan	0.030	121.408	Smt Dhaneshwar Devi W/o Bhagwan Pd and Mo Subra S/o Late Rambriksh Saw
						Total	1.400	5665.722	
			(4) Partan	1404	Private	Dhan II	0.120	485.633	Sachchidanand Singh & Harish Kumar s/o Late Brahamdev Singh & Chandradev Singh & Kapildev Singh & Ajay Singh s/o Late Sukhdev Ram & Mosmat Poonam w/o Late Sridev Singh
				1406	Private	Dhan II	0.090	364.225	Jangbahadur Singh & Ashok Singh s/o late Rameshwar Ram & Lakhan Singh s/o Late Kani Ram
				1407/1	Private	Dhan II	0.023	94.699	Mo Asha W/o Late Arjun Pd Singh and Sahdev Singh and Mahadev Singh and Surendra Singh and Mahendra Singh and Virendra Singh S/o Late Amrit Ram
				1407/2	Private	Dhan II	0.023	94.294	Maheswar Singh and Banshidhar Kuamr and Murl Singh S/o Late Jado Ram
				1407/3	Private	Dhan II	0.023	94.294	Sachchidanand Singh & Harish Kumar s/o Late Brahamdev Singh & Chandradev Singh & Kapildev Singh & Ajay Singh s/o Late Sukhdev Ram & Mosmat Poonam w/o Late Sridev Singh
				1412/1	Private	Dhan II	0.020	80.939	Mo Asha W/o Late Arjun Pd Singh and Sahdev Singh and Mahadev Singh and Surendra Singh and Mahendra Singh and Virendra Singh S/o Late Amrit Ram
				1412/2	Private	Dhan II	0.020	80.939	Jangbahadur Singh & Ashok Singh s/o late Rameshwar Ram & Lakhan Singh s/o Late Kani Ram
				1413	Private	Dhan II	0.050	202.347	Jangbahadur Singh & Ashok Singh s/o late Rameshwar Ram & Lakhan Singh s/o Late Kani Ram

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				1414	Private	Dhan II	0.040	161.878	Sachchidanand Singh & Harish Kumar s/o Late Brahmdev Singh & Chandradev Singh & Kapildev Singh & Ajay Singh s/o Late Sukhdev Ram & Moemai Poonam w/o Late Sridev Singh.
				1419/1	Private	Dhan II	0.060	242.817	Baidnath Mahato S/o Late Kashinath Mahato
				1419/2	Private	Dhan II	0.060	242.817	Ramnath Mahato S/o Late Kashinath Mahato
				1421/1	Private	Dhan II	0.013	50.587	Arjun Prasad Mahato S/o Late Mahavir Mahato
				1421/2	Private	Dhan II	0.013	50.587	Shivhankar Mahato S/o Late Mahavir Mahato
				1421/3	Private	Dhan II	0.010	40.469	Radhe Mahato S/o Late Rameshwar Mahato
				1422/1	Private	Dhan II	0.023	91.056	Radhe Mahato S/o Late Rameshwar Mahato
				1422/2	Private	Dhan II	0.020	80.939	Kailashpati Mahato S/o Late Harhar Mahato
				1422/3	Private	Dhan II	0.023	91.056	Triveni Mahato S/o Late Udi Mahato
				1505	Private	Dhan	0.020	80.939	Bekhal Mahato and Sews Mahato and Kala Mahato and Ball Mahato S/o Late Jugali Mahato
				1506	Private	Dhan II	0.015	60.704	Hemraj Mahato S/o Late Tekan Mahato
				1507	Private	Dhan	0.010	40.469	Hemraj Mahato S/o Late Tekan Mahato and Minarayan Mahato and Basudev Mahato and Khageshwar Mahato and Pravi Mahato and Nandu Mahato S/o Late Diku Mahato.
				1509/1	Private	Dhan	0.005	20.235	Maheshwar Singh and Banashidhar Singh and Muri Singh S/o Late Jado Ram
				1509/2	Private	Dhan	0.003	10.117	Mo. Asha S/o Late Arjun Singh
				1509/3	Private	Dhan	0.015	60.704	Smt Sushila Devi S/o Sahdev Singh
				1509/4	Private	Dhan	0.013	50.587	Sachchidanand Singh & Harish Kumar s/o Late Brahmdev Singh & Chandradev Singh & Kapildev Singh & Ajay Singh s/o Late Sukhdev Ram & Moemai Poonam w/o Late Sridev Singh.
				1625	Private	Dhan II	0.020	80.939	Mahesh Prasad Mahato and Chhatradhar Prasad Mahato S/o Late Jagdale Mahato
				1665	Private	Dhan II	0.010	40.469	Mahavir Mahato and Nemchari Mahato and Nageshwar S/o Late Jiwale Mahato
				1666/1	Private	Dhan II	0.015	60.704	Khemilal Mahato and Basudev Mahato S/o Anant Mahato and Bangali Mahato and Gajadhar Mahato and Sitaram Mahato S/o Late Sahdev Mahato
				1666/2	Private	Dhan II	0.005	20.235	Smt Sonia Devi S/o Basdev Mahato
				1671	Private	Dhan II	0.015	60.704	Mo Paro S/o Rupai Yadav one part and Bhado Yadav and Tuleshwar Yadav S/o Late Shiv Gop.
				1672	Private	Dhan II	0.010	40.469	Smt Vimla Devi Urf Muniya Devi S/o Kedarnath Mahato
				1673	Private	Dhan II	0.010	40.469	Smt Vimla Devi Urf Muniya Devi S/o Kedarnath Mahato
				1674	Private	Dhan II	0.020	80.939	Smt Vimla Devi Urf Muniya Devi S/o Kedarnath Mahato
				1675	Private	Dhan II	0.020	80.939	Smt Vimla Devi Urf Muniya Devi S/o Kedarnath Mahato
				1918	Private	Dhan II	0.040	161.878	Ashok Ram and Kashi Ram and Prayag Ram S/o Late Ishwar Ram and Fala Ram and Mahavir Ram S/o Late Bharu Ram
				1919/1	Private	Dhan II	0.008	30.352	Outarchand Ram S/o Late Damari Ram
				1919/2	Private	Dhan II	0.008	30.352	Ramchandra Prasad S/o Khemilal Mahato and Hulas Prasad Mahato S/o Late Bholanath Mahato and Baleshwar Prasad Baleshwar Prasad Mahato S/o Vahan Mahato
				1920	Private	Dhan II	0.020	80.939	Ashok Ram and Kashi Ram and Prayag Ram S/o Late Ishwar Ram and Fala Ram and Mahavir Ram S/o Late Bharu Ram
				1921	Private	Dhan II	0.035	141.843	Maina Devi S/o Indra Mahato
				1923	Private	Dhan II	0.030	121.408	Moti Mahato S/o Gudari Mahato
				1924/1	Private	Dhan II	0.020	80.939	Shivhankar Prasad Mahato S/o Late Mahavir Mahato
				1924/2	Private	Dhan II	0.020	80.939	Arjun Prasad Mahato S/o Late Mahavir Mahato
				2405/1	Private	Dhan II	0.005	20.235	Shivhankar Prasad Mahato S/o Late Mahavir Mahato
				2405/2	Private	Dhan II	0.005	20.235	Arjun Prasad Mahato S/o Late Mahavir Mahato
				2405/3	Private	Dhan II	0.040	161.878	Smt Ming Devi S/o Mahesh Ram
				2406/1	Private	Dhan II	0.008	30.352	Smt Prabhawati Devi S/o Sri Bhagwan
				2406/2	Private	Dhan II	0.008	30.352	Shivprasad Sonar
				2407/1	Private	Dhan II	0.005	20.235	Smt Prabhawati Devi S/o Sri Bhagwan Saw
				2407/2	Private	Dhan II	0.005	20.235	Shivprasad Sonar
				2408/1	Private	Dhan II	0.008	30.352	Shivprasad Sonar
				2408/2	Private	Dhan II	0.008	30.352	Outarchand Ram S/o Late Damari Ram
				2409	Private	Dhan II	0.010	40.469	Trilokinath Sahu and Bhagwan Prasad S/o Late Janaki Saw and Mo Subra S/o Late Rambhikan Prasad
				2414/1	Private	Dhan II	0.005	20.235	Lalo Mahato and Cheto Mahato s/o Late Gendo Mahato and Jadunath Mahato S/o Late Bodhram Mahato
				2414/2	Private	Dhan II	0.015	60.704	Smt Dhanwa Devi S/o Baleshwar Mahato
						Total	1.130	4573.047	
			(5) Arar				0.000	0.000	
			(6) Jihu	2240	Private	Parti Kadim	0.700	2832.861	Bhureshwar Pd. Mahato s/o Ganesh Mahato
				2250	Private	Tand	0.020	80.939	Bhureshwar Pd. Mahato s/o Ganesh Mahato
				2251	Private	Tand	0.010	40.469	Unknown
				2253	Private	Tand	0.060	242.817	Bhureshwar Pd. Mahato s/o Ganesh Mahato
				2267	Private	Tand	0.050	202.347	Ritan Mahato & Prayag & Roehen & Loknath & Jaijai & Jageshwar & Jitendra & Suresh s/o Late Rupen Mahato & Lalo Mahato s/o Late Gendo Mahato & Meghan Mahato s/o Late Indo Mahato
				3065	Private	Dhan	0.170	687.981	Mahever Mahato
				3102	Private	Tand	0.010	40.469	Lalo Mahato s/o Late Gendo Mahato
				3094	Private	Tand	0.100	404.594	Saryu Mahato & Raghu Mahato & Bhureshwar Mahato s/o Late Tharu Mahato

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				3085	Private	Tand	0.38	1458 900
				3082	Private	Dhan	0.130	526 103
				3083	Private	Dhan	0.560	2266 289
				3084	Private	Dhan	0.140	568 572
				3083	Private	Dhan	0.020	80 939
				3089	Private	Dhan	0.150	768 319
				3088	Private	Bhand	0.020	80 939
				3086	Private	Dhan	0.430	1740 186
				3091	Private	Tand	0.260	1052 206
						Total	3.230	13071 631
		3. Ichak	(1) Pokhariya				0.000	0.000
			(2) Dengi				0.000	0.000

[F. No. NHAI/BOT/11019/13/2010]

S. S. GULIA, Director